



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 28—मार्च 6, 2009 (फाल्गुन 9, 1930)

No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 28—MARCH 6, 2009 (PHALGUNA 9, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 13 फरवरी 2009

सं. आर.एस./6/1/2009/5-कार्मिक--श्री एस. एम. अशरफ को 9,300--34,800/- रु. के पे बैंड-2 + 5,400/- रु. की ग्रेड पे (अंतिम) में निजी सचिव के सावधिक पद पर राज्य सभा सचिवालय में 1 फरवरी, 2009 के पूर्वाह्न से 6 महीने की अवधि के लिए राज्य सभा के माननीय सभापति के वैयक्तिक स्टॉफ में नियुक्त किया गया है।

2. श्री एस. एम. अशरफ की नियुक्ति राज्य सभा के वर्तमान माननीय सभापति के स्वनिर्णय पर है।

सी. बी. राय, निदेशक

अन्तरिक्ष विभाग

बैंगलोर-560231, दिनांक 3 फरवरी 2009

सं. 3/1 (1)/2009-1--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित व्यक्तियों को

वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांकों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
1	2	3
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	विजिना बी. पी.	25.09.2008
2.	हरिहरन के.	24.09.2008
3.	मायुख आचार्य	24.09.2008
4.	शरवणन टी. टी.	24.09.2008
5.	के. नरेश कुमार	24.09.2008
6.	पी. बालसुब्रमणियन	26.09.2008
7.	डी. एल. जयचन्द्र दास	25.09.2008

1	2	3
	श्री/श्रीमती/कु.	
8.	जुलुरी श्रीनिवासुलु	26.09.2008
9.	नचिकेता अविनाश	25.09.2008
10.	एस. नागप्रिया	29.09.2008
11.	निखिल मलहोत्रा	25.09.2008
12.	निशा एस.	25.09.2008
13.	बी. राधिका	25.09.2008
14.	रम्य बालकृष्णन	25.09.2008
15.	साजु एस.	26.09.2008
16.	के. शरवणन	25.09.2008
17.	स्वाती किरणमयी एम.	29.09.2008
18.	वी. गिरिश कुमार	25.09.2008
19.	अरुण सतीशन	26.09.2008
20.	एस. बालमुरुगन	26.09.2008
21.	बिस्व रंजन मोहन्ती	26.09.2008
22.	बुरगद्धा वी राजशेखर	26.09.2008
23.	कविता सी. एस.	26.09.2008

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 3/1 (1)/2009-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांकों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :-

क्रम नाम	नियुक्ति की तिथि
सं.	

1	2	3
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	नेहा जैन	29.09.2008
2.	राजकुमार ए. आर.	29.09.2008
3.	रंजित कुमार रेड्डी जी.	29.09.2008
4.	शरथ आर.	29.09.2008
5.	शालु एम. एस.	29.09.2008
6.	शेखर चन्द्र प्रताप	30.09.2008
7.	शिशिर रंजन	29.09.2008
8.	सिनु सेन	29.09.2008
9.	शिव कुमार जी.	29.09.2008
10.	सुदेश कुमार	30.09.2008

1	2	3
	श्री/श्रीमती/कु.	
11.	उष्णी रवीन्द्रन	30.09.2008
12.	विजेन्द्र कुमार	29.09.2008
13.	अमित कुमार सिंह	30.09.2008
14.	मने नीलेश टी.	30.09.2008
15.	निखिलेख पॉवर	30.09.2008
16.	शितिज अरोरा	30.09.2008
17.	सुशिल बर्चा	03.10.2008
18.	बी. वेंकटशिवराम जादव	06.10.2008
19.	पार्वती आर.	07.10.2008
20.	स्वती स्वरूप	07.10.2008
21.	लवराज सी.	10.10.2008
22.	आई. आईजैक साम	28.10.2008

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 3/1 (1)/2009-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वरिष्ठ तकनीकी सहायक-क को तकनीकी अधिकारी-ग के पद पर स्थानापन्न रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांकों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :-

क्रम नाम	पदोन्नति का दिनांक
सं.	

	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	मोहनन पिल्लै	01.01.2008
2.	सुरेश एन.	01.07.2008

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 3/1 (1)/2009-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस. जी. को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-जी के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 06.10.2008 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :-

	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	डॉ. पी. राधाकृष्णन नायर	
2.	गोपीनाथ पै. एम. वी.	
3.	वी. देवराजुलु	

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 3/1 (1)/2009-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में डॉ. एस. पकीरीसामी

वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी. को वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 04.08.2008 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 3/1 (1)/2009-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांकों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

क्रम नाम सं.	नियुक्ति की तिथि
श्री/श्रीमती/कु.	
1. जयकृष्णन बी.	18.09.2008
2. लीना के.	19.09.2008
3. सुप्रिय एन.	19.09.2008
4. अभिलाश के. एस.	22.09.2008
5. अमृता सिंह	24.09.2008
6. अनिल पी. मडेकल	24.09.2008
7. दिनेश के. एन.	24.09.2008
8. हरून रशीद के.	24.09.2008
9. वी. एस. जयकृष्णन	24.09.2008
10. जिनु कृष्णन	24.09.2008
11. जोसेफलाल एन. टी.	25.09.2008
12. लेबोनह बी.	24.09.2008
13. नूतन कुमारी	24.09.2008
14. वी. प्रेम कुमार	26.09.2008
15. रतन लाल लववंशी	24.09.2008
16. रोशिन जे. थामस	24.09.2008
17. संगीत सागर पी.	24.09.2008
18. सतीश कुरुविला अलेक्साण्डर	24.09.2008
19. मो. शरीफ अहमद	26.09.2008
20. श्रीजित शंकर	24.09.2008
21. श्रीदेवी एस.	24.09.2008
22. एच. श्वेतलक्ष्मी	24.09.2008
23. टेन्नीसन जे. ए.	26.09.2008

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

जी. को वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 31.07.2008 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

श्री/श्रीमती/कु.

1. एस. पाण्डियन
2. डॉ. मोहन लाल पी. पी.
3. एस. सोमनाथ
4. के. मुकुन्दन

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 3/1 (1)/2009-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांकों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

क्रम नाम सं.	नियुक्ति की तिथि
श्री/श्रीमती/कु.	
1. ऋषी कुमार	25.09.2008
2. आर. शिवकुमारन	26.09.2008
3. बी. कार्तिकेयन	26.09.2008
4. एन्नि कृष्ण	30.09.2008
5. कौटिल्य झा	30.09.2008
6. जैद अहमद	30.09.2008
7. निर्भय कुमार उपाध्याय	29.09.2008
8. अमित कुमार पाण्डे	29.09.2008
9. ए. श्री कुमार	29.09.2008
10. प्रशांत कुमार	29.09.2008
11. नितिन गुप्ता	29.09.2008
12. धनेश एस.	29.09.2008
13. देशमुख शैलेश संजयराव	29.09.2008
14. बसिल एल्छोस	29.09.2008
15. आदर्श वी. आर.	29.09.2008
16. दिलीप पी. के.	30.09.2008
17. मोहम्मद परवेज आलम	03.10.2008
18. दीपू कुमार	30.09.2008
19. प्रभात कांति राउथ	30.09.2008
20. विद्या यू मेनन	06.10.2008
21. रिनु चाकु	07.10.2008
22. शालिनि देवी आर.	07.10.2008

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 3/1 (1)/2009-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.

सं. 3/1 (1)/2009-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांकों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	डॉ. प्रशान्त हेगडे	22.09.2008
2.	डॉ. मुकुन्द गोगोई	24.09.2008

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 3/1 (1)/2009-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांकों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
----------	-----	------------------

	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	षरीन जलालुद्दीन	24.09.2008
2.	हरि के.	24.09.2008
3.	सेलिन मरिया सैमन	24.09.2008
4.	बिंदु आर.	24.09.2008
5.	बिजु वी. गोपाल	24.09.2008
6.	एम. पोन्नमलर	24.09.2008
7.	अनिल जार्ज	24.09.2008
8.	अश्वती आर. कृष्णन	24.09.2008
9.	अन्वर के. बक्कर	24.09.2008
10.	अनीप के. थम्पो	24.09.2008
11.	सिबी इब्राहिम	24.09.2008
12.	अरुण जचारिया	24.09.2008
13.	डानिश के. डेनियल	24.09.2008
14.	श्रीकान्त एच.	24.09.2008
15.	बालू आर.	24.09.2008
16.	जेनो जियो डेविड	24.09.2008
17.	हरिहरन के.	24.09.2008
18.	अभिनव रुहेला	25.09.2008
19.	समीर सौरभ	25.09.2008
20.	जिता पी. थामस	25.09.2008
21.	चेमस साहु	25.09.2008
22.	रम्या एस.	25.09.2008
23.	राजेश सिंह राजपूत	30.09.2008

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 3/1 (1)/2009-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांकों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
----------	-----	------------------

	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	सी. पेद्द पीरैय्या	26.09.2008
2.	पियुषकांति कर	26.09.2008
3.	प्रीता जी.	26.09.2008
4.	रतीशकुमार एम. पी.	29.09.2008
5.	श्रुति वी. जे.	26.09.2008
6.	अभीष भट्टाचार्या	30.09.2008
7.	अलोक कुमार	29.09.2008
8.	अमित आर्य	30.09.2008
9.	अनि के. जॉन	29.09.2008
10.	अनिल कुमार तिवारी	29.09.2008
11.	अनूप वी.	30.09.2008
12.	आन माथ्यू	29.09.2008
13.	अनुपम रामचन्द्रन	29.09.2008
14.	अरुण जोस के. ए.	29.09.2008
15.	बाबु सी.	29.09.2008
16.	यू. बालगणेश	29.09.2008
17.	भाद्रशील	29.09.2008
18.	बिमल बी. एस.	29.09.2008
19.	दीपक शर्मा	29.09.2008
20.	गिनो प्रकाश एफ.	29.09.2008
21.	मनु शर्मा	29.09.2008
22.	मोहम्मद मोइउद्दीन हसन	29.09.2008

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 3/1 (2)/2009-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों का सेवा से त्यागपत्र प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के अपराह्न से स्वीकार करते हैं:--

क्रम सं.	नाम	पदनाम	त्यागपत्र की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	अतुल कुमार सिंह	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	19.08.2008
2.	एम. राजेश	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	29.08.2008
3.	ए. रवि शंकर शास्त्री	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	03.10.2008
4.	डॉ. ए. राजेश	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	10.09.2008
5.	एस. कार्तिकेयनाथन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	23.10.2008

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 3/1 (2)/2009-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित अधिकारियों ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के अपराह से कार्यभार छोड़ दिया है :--

क्रम सं.	नाम	पद	कार्यमुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	गुडुदय्या एस. बी.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	31.08.2008
2.	महेश चंद मिश्र	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच	31.08.2008
3.	पी. पी. नायर	प्रधान सी व जीएचएस	31.08.2008
4.	टी. बी. प्रकाशन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	31.08.2008
5.	एस. सोमराजन आचारी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	31.08.2008
6.	अंबिका रवीन्द्रन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	30.09.2008
7.	दीन दयाल खुराना	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी	30.09.2008
8.	डॉ. एम. एस. प्रधानाभन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	30.09.2008
9.	डॉ. के. एन. निगम	उत्कृष्ट वैज्ञानिक	30.09.2008
10.	एस. मुरुकन अचारी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	30.09.2008
11.	बी. आर. रामकृष्णन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी.	30.09.2008
12.	ई.ई. राजकुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच	31.10.2008
13.	टी. के. जॉय	वरिष्ठ प्रधान क्रय व भण्डार	31.10.2008
14.	लीलम्मा सैमन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी	31.10.2008
15.	एस. शंकरनारायणन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	31.10.2008
16.	डॉ. के. जे. स्करिया	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी	31.10.2008
17.	टी. विजयलक्ष्मी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	31.10.2008
18.	डॉ. बी. कृष्णन	उत्कृष्ट वैज्ञानिक	31.10.2008

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 11/1 (2)/2009-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो कार्यालय, शाखा सचिवालय, नई दिल्ली में श्री ए. र. मप्रसाद राव को लेखा अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 06.08.2008 के पूर्वाह से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

दिनांक 10 फरवरी 2009

सं. 2/1/7/2003-I --डॉ. र. गो. नडादूर, भा. प्रशा. से. (कर्नाटक : 80) ने अपने मूल संवर्ग में अत्यावर्तन के परिणामस्वरूप अन्तरिक्ष विभाग, बेंगलूर में संयुक्त सचिव के पद का कार्यभार फरवरी 10, 2009 के अपराह से छोड़ दिया है।

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी 2009

सं. ए-12025/1/2009-प्रशासन-1--राष्ट्रपति, योजना आयोग के निम्नलिखित नियमित वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों को वेतन बैंड-3 15,600--39,100/- रु. + 7,600/- रु. ग्रेड पे में योजना आयोग में उनके नामों के साथ दर्शाए गए उप सलाहकार के पदों पर तदर्थ आधार पर दिनांक 12 फरवरी, 2009 से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा उक्त पदों के नियमित रूप से भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	तदर्थ आधार पर नियुक्ति पद
1.	डॉ. आर. पी. सिंह	उप सलाहकार (शिक्षा)
2.	श्री टी. के. चौधुरी	उप सलाहकार (विद्युत)
3.	श्री के. पी. सिंह	उप सलाहकार (मानीटरिंग-विद्युत)

2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति उपर्युक्त अधिकारियों को उप सलाहकार के पद पर नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती और न ही उप सलाहकार के पद पर उनकी इस तदर्थ नियुक्ति की अवधि को उप सलाहकार ग्रेड में वरीयता के लिए अथवा उच्च स्तर पर प्रोन्नति के लिए गिना जाएगा।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

(विधि आयोग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 फरवरी 2009

सं. ए-12025/1/2005-एल.सी.--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर श्री राघवेन्द्र सिंह श्रीनेत को सीधी भर्ती आधार पर दिनांक 27.1.2009 (अपराह) से अगले आदेशों तक विधि आयोग, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड में तथा 4,800/- रु. के ग्रेड वेतन में अधीक्षक (विधि) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा श्री राघवेन्द्र सिंह श्रीनेत की चिकित्सा-जांच की गई है और उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त पाया गया है।

डॉ. चौधरी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 2009

सं. ए-12026/6/06-प्रशा.-I (वि.का.)--विधि कार्य विभाग में सक्षम प्राधिकारी, विभाग की श्रीमती रेणु पांडेय, सहायक (विधि) को तदर्थ आधार पर दिनांक 19 जनवरी, 2009 के पूर्वाह से अगले आदेशों तक छह माह की अवधि के लिए विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के वेतन बैंड-2 में 9,300--34,800/- रु. के वेतनमान में और 4,800/- रु. के ग्रेड वेतन

में अधीक्षक (विधि) के पद (साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित पद) पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति से वे अधीक्षक (विधि) के पद पर नियमित नियुक्ति का कोई दावा नहीं कर सकेंगे और न ही उनके द्वारा की गई ऐसी सेवा की गणना ग्रेड में वरिष्ठता के लिए अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु की जाएगी।

वी. रवीन्द्रन, अवर सचिव

दिनांक 17 फरवरी 2009

सं. ए-12025/2/2005-प्रशा-1 (वि.का.)--सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में रु. 37,400--67,000/- के वेतन बैंड में रु. 12,000/- ग्रेड वेतन वाले पद विधि सलाहकार एवं पदेन अपर सचिव (हस्तांतरण-लेखन) का पदनाम बदलकर अपर सचिव, भारत सरकार कर दिया गया है। पद का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन पूर्ववत् रहेंगे।

वी. रवीन्द्रन, अवर सचिव

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 2 फरवरी 2009

सं. के-13013/2/2008-यू.एस.-1--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री. बेज्जाराम चंद्र कुमार को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

दिनांक 3 फरवरी 2009

सं. के-13022/2/2008-यू.एस.-1--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायिक अधिकारी (1) श्री परमेश्वरन् भवदासन्, (2) श्री सौदामिनि अम्मा शंकरानारायणा पिल्ला सतीशचन्द्रन, (3) श्री मडत्तिपरम्बिल् लोनप्पन् फ्रान्सिस् और (4) श्री पुल्लुकाट्ट शन्कु गोपिनाथन् को, उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए केरल उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

दिनांक 6 फरवरी 2009

सं. के-13014/1/2008-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (i) श्री प्रमोद दत्ताराम कोंदे, (ii) श्री उमेश दत्तात्रय साल्वी, (iii) श्री श्रीहरी

पुरुषोत्तम डावरे, (iv) श्री अनिल रामचंद्र जोशी, (v) श्रीमती मृदुला रमेश भाटकर और (vi) श्री आनंद वसंतराव पोतदार को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए बम्बई उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

सं. के-13026/4/2007-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री मान्धाता सिंह को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से पटना उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

दिनांक 9 फरवरी 2009

सं. के-13026/1/2007-यू.एस.-II--श्री मान्धाता सिंह को पटना उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त करने के संबंध में इस विभाग की दिनांक 6 फरवरी, 2009 की समसंख्यक अधिसूचना के आंशिक संशोधन में 'भारत के संविधान के अनुच्छेद-217' के स्थान पर 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 224' पढ़ा जाए।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 2009

सं. 14012/1/2006-एस.आर.--इस मंत्रालय की दिनांक 3.6.2008 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, उत्तर क्षेत्रीय परिषद् सचिवालय में सहायक श्रीमती आशा शर्मा की उसी सचिवालय में तदर्थ आधार पर अधीक्षक के रूप में नियुक्ति को, 1 फरवरी, 2009 से 31 जुलाई, 2009 तक छः महीने की आगे अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

प्रदीप यादव, निदेशक (एसआर)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 फरवरी 2009

सं. I-18011/8/2008-आई.पी.एस.-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के सामने उल्लिखित तारीखों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं :-

क्रम सं.	आईपीएस परीक्षार्थी का नाम	भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करने की तारीख
1	सर्वश्री	3
1.	प्रवीन कुमार, आईपीएस (उत्तर प्रदेश : 2001)	22.12.2005
2.	अजय कुमार मिश्र, आईपीएस (उत्तर प्रदेश : 2003)	01.09.2005

1	2	3
	सर्वश्री	
3.	कतारु सुनील एम्मेन्युल, आईपीएस (उत्तर प्रदेश : 2003)	01.09.2005
4.	नचिकेता झा, आईपीएस (उत्तर प्रदेश : 2003)	01.09.2005
5.	मोदक राजेश दिनेशरीव आईपीएस (उत्तर प्रदेश : 2003)	22.12.2005

राजेन्द्र कुमार
अनुभाग अधिकारी

नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी 2009

सं. आई-14011/2/2008-आईपीएस-1 (II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य पुलिस के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत राजस्थान संवर्ग प्रदान करते हैं :--

चयन सूची-2008

क्रम	अधिकारियों के नाम	जन्म तिथि
सं.		
	सर्वश्री	
1.	सुरेन्द्र कुमार	13.10.1956
2.	महेन्द्र सिंह चौधरी	01.07.1959
3.	प्रवीण शर्मा	13.07.1954
4.	हबीब खान गौरान	15.08.1957
5.	वीरभान अजवानी	14.02.1954
6.	प्रेम प्रकाश ताक	05.04.1956

2. चयन सूची की उपरोक्त सिफारिशें एस.बी. सिविल याचिका सं. 5241/1994, (वी. के. गौर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य) में दायर डी.बी. सिविल विशेष अपील सं. 352/2005 के परिणाम के अधधीन होंगी।

3. यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

सं. आई-14011/2/2008-आईपीएस-1 (I)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 06.02.2009 को चयन समिति की दिनांक 27.06.2008 की बैठक में

इसके द्वारा बनाई गई 2008 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के राजस्थान संवर्ग में वर्ष 2008 में छः मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु राजस्थान पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :--

चयन सूची-2008

क्रम	अधिकारियों के नाम	जन्म तिथि
सं.		
	सर्वश्री	
1.	सुरेन्द्र कुमार	13.10.1956
2.	महेन्द्र सिंह चौधरी	01.07.1959
3.	प्रवीण शर्मा	13.07.1954
4.	हबीब खान गौरान	15.08.1957
5.	वीरभान अजवानी	14.02.1954
6.	प्रेम प्रकाश ताक	05.04.1956

2. चयन सूची की उपरोक्त सिफारिशें एस.बी. सिविल याचिका सं. 5241/1994, (वी. के. गौर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य) में दायर डी.बी. सिविल विशेष अपील सं. 352/2005 के परिणाम के अधधीन होंगी।

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 फरवरी 2009

सं. 23/3/2009-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री जरनैल सिंह, भा.प्र.से. (एम. टी. 1974) को दिनांक 2.2.2009 (पूर्वाह्न) से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में सचिव नियुक्त करते हैं।

अशोलि चलाई, उप सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 2009

सं. 14015/14/2008-अ.भा.से. (I)-क--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रवर सूची वर्ष 2006, 2007 और 2008 की प्रवर सूची के संबंध में राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत महाराष्ट्र के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदोन्नति कोट रिक्तियों को भरने के लिए, विनियम 5(5) के अंतर्गत 27 नवम्बर, 2008 को तैयार की गई और विनियम 7(2) के अंतर्गत

12 फरवरी, 2009 को अनुमोदित की गई महाराष्ट्र के राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के निम्नलिखित नामों वाली प्रवर सूची को अधिसूचित करते हैं :—

प्रवर सूची-2006

क्रम	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
सं.		

सर्वश्री

1. *	आर. आर. मजरीकर (अनुसूचित जनजाति)	19.06.1951
2.	ए. एम. भारकड़े (अनुसूचित जनजाति)	01.07.1953
3.	एस. जे. कोचे (अनुसूचित जाति)	08.06.1952
4.	आर. जी. कुलकर्णी	01.07.1958

प्रवर सूची-2007

1.	एफ. बी. वास्वे (अनुसूचित जनजाति)	08.10.1953
2.	बी. बी. पाटिल	11.06.1962
3.	एन. के. पोयम (अनुसूचित जनजाति)	10.10.1960
4.	डी. डी. वालवी (अनुसूचित जनजाति)	17.10.1953

प्रवर सूची-2008

1.	आर. आर. माने	10.08.1960
----	--------------	------------

* प्रवर सूची 2006 में श्री आर. आर. मजरीकर का नाम शामिल किया जाना, उनके द्वारा, बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर में महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध दायर रिट याचिका संख्या 3029/2007 के निर्णय के अध्वर्धन है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/13/2008-अ.भा.से. (I)-ख--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र की राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्य की प्रवर सूची वर्ष 2006, 2007 और 2008 के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत महाराष्ट्र संवर्ग में आर्वाइव करते हैं :—

प्रवर सूची-2006

क्रम	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
सं.		

सर्वश्री

1. *	आर. आर. मजरीकर (अनुसूचित जनजाति)	
2.	ए. एम. भारकड़े (अनुसूचित जनजाति)	

1	2
---	---

सर्वश्री

3. एस. जे. कोचे (अनुसूचित जाति)

4. आर. जी. कुलकर्णी

प्रवर सूची-2007

1. एफ. बी. वास्वे (अनुसूचित जनजाति)

2. बी. बी. पाटिल

3. एन. के. पोयम (अनुसूचित जनजाति)

4. डी. डी. वालवी (अनुसूचित जनजाति)

प्रवर सूची-2008

1. आर. आर. माने

* वर्ष 2006 की प्रवर सूची के संबंध में श्री आर. आर. मजरीकर की नियुक्ति, उनके द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर न्यायपीठ में महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध दायर रिट याचिका संख्या 3029/2007 के निर्णय के अध्वर्धन है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/06/2008-अ.भा.से.-(I)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, वर्ष 2008 की चयन सूची के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत गुजरात के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदोन्नति कोट की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत 1 दिसम्बर 2008 को तैयार की गई तथा विनियम 7(1) के अंतर्गत दिनांक 15 जनवरी, 2009 को अनुमोदित की गई गुजरात रा की राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के निम्नलिखित नामों वाली चयन सूची को अधिसूचित करते हैं :—

चयन सूची-2008

क्रम	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
सं.		

सर्वश्री

1.	डी. ए. सत्या	13.12.1955
2.	जे. जी. हिंमणि	10.05.1954
3.	एम. बी. पं. अनु. जनजाति)	08.06.1954
4. *	पी. ए. श	31.08.1954

* राज्य रा द्वारा सत्यनिष्ठा/प्रमाणपत्र की स्वीकृति के अध्वर्धन अस्थाः न से सूची में क्रम सं. 04 के अधिकारी को शामिल कर लिया है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/06/2008-अ.भा.से.-(I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, वर्ष 2008 की चयन सूची के लिए राज्य सरकार से परामर्श करके उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर गुजरात की राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर, अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के तहत उन्हें गुजरात संवर्ग में आबंटित करते हैं :--

क्रम अधिकारी का नाम
सं.

- सर्वश्री
1. डी. ए. सत्या
 2. जे. जी. हिंज्रजिया
 3. एम. बी. पटेल (अनसूचित जनजाति)

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/06/2008-अ.भा.से.-(I)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, वर्ष 2008 की चयन सूची के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित गैर राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत गुजरात के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5 के अंतर्गत 2.12.2008 को तैयार की गई तथा विनियम 7(2) के अंतर्गत दिनांक 21 जनवरी, 2009 को अनुमोदित की गई गुजरात राज्य की गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के नामों वाली सूची को अधिसूचित करते हैं :--

क्रम अधिकारी का नाम सं.	जन्म तिथि
सर्वश्री	
1. एम. ए. गांधी	13.01.1964
2. एच. एन. ठक्कर	13.08.1955
3. एन. बी. उपाध्याय	31.10.1962

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/06/2008-अ.भा.से.-(I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(2) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, वर्ष 2008 की चयन सूची

के लिए राज्य सरकार से परामर्श करके उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर गुजरात की गैर-राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के तहत उन्हें गुजरात संवर्ग में आबंटित करते हैं :--

क्रम अधिकारी का नाम
सं.

- सर्वश्री
1. एम. ए. गांधी
 2. एच. एन. ठक्कर
 3. एन. बी. उपाध्याय

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

दिनांक 24 फरवरी 2009

सं. 14015/01/2008-अ.भा.से.-(I)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, वर्ष 2008 की चयन सूची के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत 31 जनवरी, 2009 को तैयार की गई तथा विनियम 7(2) के अंतर्गत दिनांक 17 फरवरी, 2009 को अनुमोदित की गई आंध्र प्रदेश राज्य की राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के निम्नलिखित नामों वाली चयन सूची को अधिसूचित करते हैं :--

चयन सूची-2008

क्रम अधिकारी का नाम सं.	जन्म तिथि
सर्वश्री	
1. ई. श्रीधर (अनु. जनजाति)	28.05.1968
2. मो. अब्दुल अजीम	02.01.1963
3. एम. जगन्नाथम	01.07.1958
4. टी. के. श्रीदेवी	14.08.1970
5. आई. सम्यूल आनंद कुमार	17.05.1961
6. बी. करुना	26.07.1966
7. बी. बाला माया देवी (अनु. जाति)	08.10.1967

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/01/2008-अ.भा.से.-(I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, वर्ष 2008 की चयन सूची के लिए राज्य सरकार से परामर्श करके उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर आंध्र प्रदेश की राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर, अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के तहत उन्हें आंध्र प्रदेश संवर्ग में आबंटित करते हैं :-

क्रम अधिकारी का नाम

सं.

सर्वश्री/श्रीमती

1. ई. श्रीधर (अनु. जनजाति)
2. मो. अब्दुल अजीम
3. एम. जगन्नाथम
4. टी. के. श्रीदेवी
5. आई. सम्यूल आनंद कुमार
6. वी. करूना
7. बी. बाला माया देवी (अनु. जाति)

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/21/2008-अ.भा.से.-(I)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, वर्ष 2008 की चयन सूची के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत तमिलनाडु के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत 22 नवम्बर, 2008 को तैयार की गई तथा विनियम 7(2) के अंतर्गत दिनांक 18 फरवरी, 2009 को अनुमोदित की गई तमिलनाडु राज्य की राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के नामों वाली चयन सूची को अधिसूचित करते हैं :-

चयन सूची-2008

क्रम अधिकारी का नाम

जन्म तिथि

सं.

- | सं. | क्रम अधिकारी का नाम | जन्म तिथि |
|-----|--|------------|
| 1 | सर्वश्री/श्रीमती वी. शोबना (अनुसूचित जाति) | 24.02.1967 |
| 2 | सी. मुनियनाथन (अनुसूचित जाति) | 19.08.1962 |

1	2	3
	सर्वश्री/श्रीमती	
3.	एम. विजयकुमार (अनुसूचित जाति)	07.10.1960
4.	सेल्वी ए. सुगंती (अनुसूचित जाति)	04.05.1965
5.	एस. मधुमती (अनुसूचित जाति)	28.01.1967
6.	टी. एन. हरिहरन (अनुसूचित जाति)	14.06.1965
7.	एम. वल्लालर (अनुसूचित जाति)	22.06.1967
8.	सी. कामराज (अनुसूचित जाति)	10.05.1963
9.	टी. अब्राहम (अनुसूचित जाति)	02.04.1966
10.	टी. पी. राजेश (अनुसूचित जाति)	17.04.1963

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/21/2008-अ.भा.से.-(I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, वर्ष 2008 की चयन सूची के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार से परामर्श करके उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर तमिलनाडु की राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के तहत उन्हें तमिलनाडु संवर्ग में आबंटित करते हैं :-

क्रम अधिकारी का नाम

सं.

सर्वश्री/श्रीमती

1. श्रीमती वी. शोबना (अनुसूचित जाति)
2. सी. मुनियनाथन (अनुसूचित जाति)
3. एम. विजयकुमार (अनुसूचित जाति)
4. सेल्वी ए. सुगंती (अनुसूचित जाति)
5. एस. मधुमती (अनुसूचित जाति)
6. टी. एन. हरिहरन (अनुसूचित जाति)
7. एम. वल्लालर (अनुसूचित जाति)
8. सी. कामराज (अनुसूचित जाति)
9. टी. अब्राहम (अनुसूचित जाति)
10. टी. पी. राजेश (अनुसूचित जाति)

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/12/2008-अ.भा.से.-(I)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(2) द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, वर्ष 2008 की चयन सूची के लिए केरल राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत केरल के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदोन्नति कोट की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5 के अंतर्गत 30.12.2008 को तैयार की गई तथा विनियम 7(2) के अंतर्गत दिनांक 19 फरवरी, 2009 को अनुमोदित की गई केरल राज्य की राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के निम्नलिखित नामों वाली चयन सूची को अधिसूचित करते हैं :—

प्रवर सूची-2008

क्रम अधिकारी का नाम सं.	जन्म तिथि
सर्वश्री	
1. बीजू प्रभाकर (अन्य पिछड़ा वर्ग)	20.04.1965
2. श्रीमती एम. एस. जया	29.05.1959

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/12/2008-अ.भा.से.-(1)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, वर्ष 2008 की चयन सूची के लिए केरल राज्य सरकार से परामर्श करके उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर केरल की राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर, अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के तहत उन्हें केरल संवर्ग में आर्बिट्रि करते हैं :—

क्रम अधिकारी का नाम सं.	जन्म तिथि
सर्वश्री	
1. बीजू प्रभाकर (अन्य पिछड़ा वर्ग)	
2. श्रीमती एम. एस. जया	

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 फरवरी 2009

[मुख्यालय स्थापना (सीए)]

सं. 1/2009 फा. सं. ए-15011/2/2008-सीए--राष्ट्रपति, श्रीमती रेनु जौहरी, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 87) की अधिकारी को तत्काल और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 तथा 472-GI-H-2008

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत 4 फरवरी, 2009 के अपराह्न से और अगले आदेश तक सक्षम प्राधिकारी/प्रशासक, दिल्ली के रूप में नियुक्त करते हैं।

विक्टर जेम्स, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 9 फरवरी 2009

सं. ए-19013/01/2009-प्रशा.-2--व्यय विभाग (सीएस) के 5.2.2009 के का.ज्ञा.सं. ए-32014/3/2007-सीएस के अनुसरण में, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय संवर्ग के सीएसएसएस के नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'सी' श्री अशोक कुमार वर्मा को 28.1.2009 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में पे बैंड-2 में 9,300--34,800/- रु. + 4,800/- रु. (ग्रेड पे) के वेतनमान में पूर्णतया तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के आशुलिपिक ग्रेड ए तथा बी (सम्मिलित) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. आशुलिपिक ग्रेड ए तथा बी (सम्मिलित) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) के रूप में श्री अशोक कुमार वर्मा, आशुलिपिक ग्रेड 'सी' की तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :—

- इस नियुक्ति से नियुक्त व्यक्ति को इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा सीएसएसएस के ग्रेड 'ए तथा बी' (सम्मिलित) (निजी सचिव) में नियमित नियुक्ति के लिए प्रवर सूची में शामिल किए जाने अथवा वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा;
- यह तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 2009

सं. ए-15012/1/2007-डीआरटी--बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 6 के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, श्री ई. जैकब आर. डेनियल, अपर विधि सहायक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, चैन्नई को 31 दिसम्बर, 2008 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण-II, चैन्नई में पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

बी. पी. भारद्वाज, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी 2009

सं. ए-15012/1/2007-डीआरटी--बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 4 की

उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने भी श्री बी. सुब्रमण्यन को 21 जनवरी, 2009 (पूर्वाह्न) से अथवा उनके 62 वर्ष का आयु प्राप्त कर लेने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण, एनांकुलम, में पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

ए. थॉमस, उप सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 2009

सं. ए-12026/6/2008-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमित अधिकारी, श्री आर. के. थापर को 11 सितम्बर, 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में 15,600--39,100 + 6,600/- रु. के संशोधित वेतन बैंड + ग्रेड वेतन अर्थात् वेतन बैंड-3 में पूर्णतः तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :--

- (i) इस तदर्थ नियुक्ति से इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने अथवा ग्रेड-1 में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा;
- (ii) यह तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

बी. एस. समकरिया, अवर सचिव

नई दिल्ली-110511, दिनांक 30 जनवरी 2009

सं. ए-32013/8/2008/गुप ए/ईड/79-86--राष्ट्रपति, समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय सिविल लेखा सेवा (समूह 'क') भर्ती नियमावली, 2006 के अनुसार श्री रमेश चंद जैन, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (समूह 'ख') को 8,000-275-13,500/- रु. (पूर्व संशोधित) (5,400/- रु. के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रु. का नया वेतन बैंड-3) में भारतीय सिविल लेखा सेवा (समूह 'क') के कनिष्ठ समयमान में 1 फरवरी, 2009 को या उसके पश्चात् कनिष्ठ समयमान के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

परिवीक्षा की अवधि कनिष्ठ समयमान में उनके द्वारा पद का कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से दो वर्ष के लिए होगी।

एस. एस. दुबे, उप महालेखा नियंत्रक

विनिवेश विभाग

नई दिल्ली 110003, दिनांक 13 फरवरी 2009

सं. 9/3/2009 प्रशासन--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (सीएस-1-डी अनुभाग) के दिनांक 06 फरवरी, 2009 के कार्यालय आदेश संख्या 4/5/2008-सीएस-1 (डी) के अनुसरण में सुश्री अनीता चौहान ने 10 फरवरी, 2009 के पूर्वाह्न से विनिवेश विभाग में निदेशक के पद का

कार्यभार ग्रहण कर लिया है और उन्हें इस विभाग की नामावली में सम्मिलित कर लिया गया है।

नरेन्द्र सिंह, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी 2009

सं. 2/2009 (ए-19011/1/2009-स्था.-1)--राष्ट्रपति द्वारा सुश्री संगीता गोडबोले, आईआरएस (आईटी : 89) को 13 जनवरी, 2009 के पूर्वाह्न से अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है।

आर. के. मित्रा, निदेशक

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 दिसम्बर 2008

सं. ए-32011/4/2007-मा.सं.-II--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 12.08.2008 के का. जा. सं. 5/5/2008-सी.एस.-II के अंतर्गत जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार राष्ट्रपति उर्वरक विभाग और रसायन तथा पेट्रोरसायन विभाग के संयुक्त संवर्ग में कार्यरत सीएसएसएस के ग्रेड 'ग' के नियमित आशुलिपिक श्रीमती सुनीता मल्होत्रा को पे बैंड (पीबी-2) 9,300--34,800/- रु. तथा ग्रेड पे 4,800/- रु. के वेतनमान में दिनांक 04.12.2008 के पूर्वाह्न से 30.12.2008 की अवधि तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सीएसएसएस में पूर्णतः तदर्थ आधार पर आशुलिपिक ग्रेड 'क और ख' (विलयित) के रूप में प्रोन्नत करती हैं। डीओपीटी के दिनांक 31.05.2006 के का. जा. सं. 5/8/2006-सी.एस.-II में दिए गए अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

2. उनके विरुद्ध कोई भी सतर्कता मामला लम्बित अथवा विचाराधीन नहीं है।

एस. आर. घोष, अवर सचिव

सं. ए-32011/4/2007-मा.सं.-II--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 12.08.2008 के का. जा. सं. 5/5/2008-सी.एस.-II के अंतर्गत जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार राष्ट्रपति उर्वरक विभाग और रसायन तथा पेट्रोरसायन विभाग के संयुक्त संवर्ग में कार्यरत सीएसएसएस के ग्रेड 'ग' के नियमित आशुलिपिक श्रीमती हरिता कपूर को पे बैंड (पीबी-2) 9,300--34,800/- रु. तथा ग्रेड पे 4,800/- रु. के वेतनमान में दिनांक 04.12.2008 के पूर्वाह्न से 30.12.2008 की अवधि तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सीएसएसएस में पूर्णतः तदर्थ आधार पर आशुलिपिक ग्रेड 'क और ख' (विलयित) के रूप में प्रोन्नत करती हैं। डीओपीटी के दिनांक 31.05.2006 के का. जा. सं. 5/8/2006-सी.एस.-II में दिए गए अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

2. उनके विरुद्ध कोई भी सतर्कता मामला लम्बित अथवा विचाराधीन नहीं है।

एस. आर. घोष, अवर सचिव

सं. ए-32011/4/2007-मा.सं.-II--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 12.08.2008 के का. ज्ञा. सं. 5/5/2008-सी.एस.-II के अंतर्गत जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार राष्ट्रपति उर्वरक विभाग और रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग के संयुक्त संवर्ग में कार्यरत सीएसएसएस के ग्रेड 'ग' के नियमित आशुलिपिक श्री एम. के. चावला को पे बैंड (पीबी-2) 9,300--34,800/- रु. तथा ग्रेड पे 4,800/- रु. के वेतनमान में दिनांक 04.12.2008 के पूर्वाह्न से 30.12.2008 की अवधि तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सीएसएसएस में पूर्णतः तदर्थ आधार पर आशुलिपिक ग्रेड 'क और ख' (विलयित) के रूप में प्रोन्नत करती हैं। डीओपीटी के दिनांक 31.05.2006 के का. ज्ञा. सं. 5/8/2006-सी.एस.-II में दिए गए अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

2. उनके विरुद्ध कोई भी सतर्कता मामला लम्बित अथवा विचाराधीन नहीं है।

एस. आर. घोष, अवर सचिव

दिनांक 19 जनवरी 2009

सं. ए-12011/10/2008-मा. सं.-II (भाग)--राष्ट्रपति, श्री सुधीर भार्गव, आईएस (राज. : 1979) को उर्वरक विभाग में 18,400--22,400/- रु. (पूर्व संशोधित) के वेतनमान में 16 जनवरी, 2009 के पूर्वाह्न से पांच वर्षों की अवधि तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

एस. आर. घोष, अवर सचिव

दिनांक 21 जनवरी 2009

सं. ए-32011/4/2007-मा.सं.-II--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 05.11.2008 के का. ज्ञा. सं. 5/12/2007-सी.एस.-II के अंतर्गत श्री कृष्ण लाल को वर्ष 2005 के लिए सीएसएसएस के आशुलिपिक ग्रेड 'क और ख' (समापेक्षित) की चयन सूची में शामिल किए जाने और उर्वरक संवर्ग, जिसमें उर्वरक विभाग और रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग शामिल हैं, में नामांकन किए जाने तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में दिनांक 22.12.2008 के का. आ. सं. 5-9/2007-प्रशासन के तहत कार्यमुक्त करने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति श्री कृष्ण लाल को दिनांक 22 दिसम्बर, 2008 के पूर्वाह्न से पे-बैंड (पीबी-2) 9,300--34,800/- रु. तथा ग्रेड पे 4,800/- रु. में नियमित आधार पर सीएसएसएस के आशुलिपिक ग्रेड 'क और ख' (समापेक्षित) के रूप में नियुक्त करती हैं।

2. उन्हें रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में तैनात किया जाता है।

एस. आर. घोष, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी 2009

सं. ए-12011/15/2006-प्रशा.--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 जनवरी, 2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/9/2008-सी.एस.-1 (डी) के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) की चयन सूची में उनका नाम शामिल कर लिए जाने के परिणामस्वरूप, इस विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के तदर्थ उप सचिव श्री गिरजा नन्द सिंह को 1 जुलाई, 2006 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक उपभोक्ता मामले विभाग में नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

प्रेमा भट्ट, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 4 फरवरी 2009

सं. ए-38011/3/2008-पी-II--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने के फलस्वरूप, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में उप सचिव श्री चिरंजी लाल लांग्यान, 31 जनवरी, 2009 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

प्रेमा मोहन, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 2009

सं. ए-12025/30/2007-सी.एच.एस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. (सुश्री) रविन्दर कौर को दिनांक 23 फरवरी, 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में संज्ञाहरण की विशिष्टता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

दिनांक 13 फरवरी 2009

सं. ए-12025/38/2006-सी.एच.एस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. अनंता कुमार नाइक को दिनांक 21 अगस्त, 2007 के अपराह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में अस्थिर रोग विज्ञान की विशिष्टता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 2009

सं. ए-19013/2/1988-स्थापना-I--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.1.2009 के आदेश संख्या 5/1/2009 ई. ओ. (एस. एम.-I) के अनुसरण में सुश्री के. सुजाता राव, आई.ए.एस.

(आंध्र प्रदेश : 74) को दिनांक 20 दिसम्बर, 2008 के पूर्वाह्न से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव, एड्स नियंत्रण विभाग और महानिदेशक, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के रूप में नियुक्त करते हैं।

अरविंद कुमार, अवर सचिव

दिनांक 6 फरवरी 2009

सं. ए-12023/05/2008-स्थापना-III--राष्ट्रपति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में नियमित एबीएमओ, श्री रमण प्रसाद को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में 7,600/- रु. के ग्रेड वेतन (12,000--16,500/- पूर्व-संशोधित) के साथ 15,600--39,100/- रु. के वेतनमान के वेतन बैंड-3 में कार्यक्रम अधिकारी (श्रव्य-दृश्य) के पद पर 20 जनवरी, 2009 के पूर्वाह्न से प्रारंभिक तौर पर छः मास की अवधि के लिए या इस पद को नियमित रूप से भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

अरविंद कुमार, अवर सचिव

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 2 फरवरी 2009

सं. ए-22012/01/99-आयुष (स्था.-II)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पत्र संख्या 5/14/2008-ईओ (एसएम-1) दिनांक 29 दिसम्बर, 2008 के अनुसरण में राष्ट्रपति, द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (एमटी : 80) के अधिकारी श्री संजय कुमार पांडा को 5 वर्षों की अवधि हेतु 02 फरवरी, 2009 के पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो 37,400--67,000 (पी.बी.-4) और 10,000/- रु. के ग्रेड वेतन में आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

टी. एस. भाटिया, उप सचिव

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 2009

सं. ए-38012/3/2008-प्रशासन-1--सेवानिवृत्ति की आयु हो जाने के फलस्वरूप डॉ. सुरेश कुमार चतुर्वेदी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी टी. बी., स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय दिनांक 31.12.2009 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

आर. के. कालड़ा

उप निदेशक प्रशासन (आर.के.के.)

दिनांक 11 फरवरी 2009

सं. ए-38012/4/2008-प्रशासन-1--सेवानिवृत्ति की आयु हो जाने के फलस्वरूप डॉ. गुरमांत सिंह सोएन, निदेशक (के.स.स्वा.यो.), स्वास्थ्य

सेवा महानिदेशालय दिनांक 31.12.2009 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

आर. के. कालड़ा

उप निदेशक प्रशासन (आर.के.के.)

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2009

सं. 4-3/87-एम. एण्ड टी.--(प्रशा.)--राष्ट्रपति, श्री वाई. सुनेजा, निदेशक, पूर्वोत्तर क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, विश्वनाथ चरियाली, सोनितपुर, असम को सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 (1) (क) के तहत तीन माह की नोटिस अवधि के बाद 28.2.2009 के अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की अनुमति देते हैं।

वीना भल्ला, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 2009

सं. 32011/1/2008-स्वा.-II--सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से कृषि एवं सहकारिता विभाग के नियमित वरिष्ठ तकनीकी सहायक (फसल) श्री श्रवण कुमार और श्री एस. आर. कचरू दोनों को तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (फसल) रूप में कार्य कर रहे हैं, को इस विभाग में दिनांक 26.11.2008 से नियमित प्रोन्नति आधार पर वेतन बैंड-2 में 4,800/- रु. के ग्रेड वेतन के साथ 9,300--34,800/- रु. के वेतनमान में सहायक निदेशक (फसल) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

ए. के. अरोड़ा, अवर सचिव

पटसन विकास निदेशालय

कोलकाता-700020, दिनांक 3 फरवरी 2009

सं. 3-3/डीजेडी/2008/1415(ति)--तेलहन विकास निदेशालय, हैदराबाद के नियमित सांख्यिकी अन्वेषक श्री ललित शर्मा को इस निदेशालय के सहायक निदेशक के पद पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में अस्थायी स्थानापन्न हैसियत में 16 जनवरी, 2009 के पूर्वाह्न में नियुक्त करते हुए अधोहस्ताक्षरी को खुशी हो रही है।

हस्ता./ अपठनीय
निदेशक

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जनवरी 2009

सं. ए-32014/1/2006-स्थापना-III--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/11/2007-सी.एस.-II दिनांक 7.2.2008 के अनुपालन में राष्ट्रपति मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग के आशुलिपिक ग्रेड 'सी' श्री जगतार सिंह को 29.05.2008 के पूर्वाह्न

से 30.06.2008 तक अथवा अगले आदेशों तक तदर्थ आधार पर 6,500-200-10,500/- रु. के संशोधन पूर्व वेतनमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग के संवर्ग में निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

जिले सिंह विकल, अवर सचिव

दिनांक 30 जनवरी 2009

सं. ए-12024 (3)/2005-स्थापना-III--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/12/2007-सी.एस.-II दिनांक 5.11.2008 के अनुपालन में राष्ट्रपति गृह मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग के आशुलिपिक ग्रेड 'सी' श्री हेत राम को 18.12.2008 के पूर्वाह्न से नियमित आधार पर 6,500-200-10,500/- रु. के संशोधन पूर्व वेतनमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग के संवर्ग में निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

जिले सिंह विकल, अवर सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 जनवरी 2009

सं. 8-2/2007-एसआई/एस--नियुक्ति संबंधी मंत्रीमंडलीय समिति (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 12 जनवरी, 2009 के आदेश सं. 4/1/2009-इओ (एस.एम.-1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, श्रीमती अंशु वैश्य, भा.प्र.से. (मध्य प्रदेश : 75) को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के पद पर नियुक्ति को, वर्तमान पद में स्व-स्थाने उन्नयन द्वारा भारत सरकार के सचिव के पद तथा वेतन में, 31 दिसम्बर, 2008 की अवधि के बाद और 31 जनवरी, 2009 तक या अगले आदेशों तक बढ़ाते हैं।

बी. एल. मीना, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 6 फरवरी 2009

सं. ए-12034/1/2004-स्था.--राष्ट्रपति, इस मंत्रालय के श्री बी. आर. मल्होत्रा, निदेशक (सामान्य केन्द्रीय सेवा) को उप सचिव स्तर पर माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं। वे पदभार ग्रहण करने की तारीख से मंत्री के कार्यकाल तक अथवा पांच वर्षों की अवधि तक अथवा जब वे मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करना बन्द कर देंगे अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, इस पद पर बने रहेंगे।

वीरेन्द्र कुमार, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी 2009

सं. 11019/2/2005-स्थापना--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के कार्यालय आदेश सं. 13016/2/2008-आईईएस दिनांक

29.12.2008 के अनुसरण में राष्ट्रपति सुश्री उर्वशी साधवानी को 01.01.2009 के पूर्वाह्न से ग्रेड वेतन 10,000/- रु. के साथ वेतन बैंड-4 (अर्थात् 37,400-67,000/- रु.) में जनजातीय कार्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार नियुक्त करते हैं।

ए. के. साहा, अवर सचिव

दिनांक 4 फरवरी 2009

सं. 19011/1/2009-स्थापना--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.01.2009 के आदेश संख्या 5/15/2008-सीएसआई(यू) के अनुसरण में श्री आर.एच.एच. हमर को 20.01.2009 के पूर्वाह्न से जनजातीय कार्य मंत्रालय में अवर सचिव नियुक्त करते हैं।

ए. के. साहा, अवर सचिव

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 दिसम्बर 2008

विषय :-- सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2007 के परिणाम के आधार पर भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह 'क' में नियुक्ति।

सं. 7-03/2006-एस.ई.ए.-I--राष्ट्रपति, संच लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2007 के आधार पर सुश्री दिव्या ए. बी. (रैंक नं. 478) (सामान्य) को भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ समयमान में पी.बी. ₹. 15,600-39,100 + 5,400/- रु. के वेतनमान (पे बैंड-3) में निम्नलिखित शर्तों पर अंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :--

(i) यह पद स्थायी है किन्तु वह नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे जिसे सक्षम अधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिसे सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथास्थिति या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा, जिस पद पर वे लियन पर हैं।

(ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अभान्य करार दिया गया हो तो यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्वधीन होगी।

(iii) महिला उम्मीदवार को इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा करनी होगी कि किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करने पर जिसकी एक पत्नी जीवित है, यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्वधीन होगी।

(iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने

के अध्यधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।

- (v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।
- (vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।
- (vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए नियमों और आदेशों द्वारा अभिशसित होंगी।

2. यह नियुक्ति प्रस्ताव अनंतिम है जो संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने के अध्यधीन होगी।

3 (क). यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति, उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्यधीन होगी।

3(ख). यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाण-पत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति को किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई पर बिना कोई प्रभाव डाले तत्काल रद्द किया जा सकता है।

4. यह आबंटन अनंतिम है और यह माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास द्वारा डब्ल्यूपी संख्या 1814-1815/2008 में जारी आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर एसएलपी संख्या 13571-13572/2008 में निर्णय के अध्यधीन है।

5. इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना इस विभाग को हर हालत में दें। यदि यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो महाप्रबंधक (प्रशिक्षण एवं वित्त), दूरसंचार विभाग, एनआईसीएफ, गाजियाबाद को रिपोर्ट करें। यदि इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो यह प्रस्ताव रद्द हो जाएगा।

पी. सी. पांडा
सहायक महानिदेशक (एसईए)

विषय :-- सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2007 के परिणाम के आधार पर भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह 'क' में नियुक्ति।

सं. 7-03/2006-एस.ई.ए.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2007 के आधार पर श्री शेख आरिफ हुसैन (रैंक नं. 116) (सामान्य) को भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ समयमान में पी.बी. 15,600--39,100 + 5,400/- रु. के वेतनमान (पे बैंड-3) में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :--

- (i) यह पद स्थायी है किन्तु वह नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे जिसे सक्षम अधिकारी के विवेक पर

बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिसे सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथास्थिति या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा, जिस पद पर वे लियन पर हैं।

- (ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया हो तो यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्यधीन होगी।

- (iii) महिला उम्मीदवार को इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा करनी होगी कि किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करने पर जिसकी एक पत्नी जीवित है, यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्यधीन होगी।

- (iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।

- (v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।

- (vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।

- (vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए नियमों और आदेशों द्वारा अभिशसित होंगी।

2. यह नियुक्ति प्रस्ताव अनंतिम है जो संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने के अध्यधीन होगी।

3 (क). यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति, उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्यधीन होगी।

3(ख). यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाण-पत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति को किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई पर बिना कोई प्रभाव डाले तत्काल रद्द किया जा सकता है।

4. यह आबंटन अनंतिम है और यह माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास द्वारा डब्ल्यूपी संख्या 1814-1815/2008 में जारी आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर एसएलपी संख्या 13571-13572/2008 में निर्णय के अध्यधीन है।

5. इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना इस विभाग को हर हालत में दें। यदि यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो महाप्रबंधक (प्रशिक्षण एवं वित्त), दूरसंचार विभाग, एनआईसीएफ, गाजियाबाद को रिपोर्ट करें। यदि इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो यह प्रस्ताव रद्द हो जाएगा।

पी. सी. पांडा
सहायक महानिदेशक (एसईए)

विषय :-- सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2007 के परिणाम के आधार पर भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह 'क' में नियुक्ति।

सं. 7-03/2006-एस.ई.ए.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2007 के आधार पर श्री बोडे अमित अशोक राव (रैंक नं. 284) (अन्य विच्छेदा वर्ग) को भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ समयमान में पी.बी. 15,600--39,100 + 5,400/- रु. के वेतनमान (पे बैंड-3) में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :--

- (i) यह पद स्थायी है किन्तु वह नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे जिसे सक्षम अधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिसे सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथास्थिति या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा, जिस पद पर वे लियन पर हैं।
- (ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करने होगी कि यदि उनके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया गया हो तो यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अधधीन होगी।
- (iii) महिला उम्मीदवार को इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा करनी होगी कि किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करने पर जिसकी एक पत्नी जीवित है, यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अधधीन होगी।
- (iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने के अधधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।
- (v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।
- (vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।
- (vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।

2. यह नियुक्ति प्रस्ताव अनंतिम है जो संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने के अधधीन होगा।

3 (क). यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति, उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अधधीन होगी।

3(ख). यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाण-पत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति को किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई पर बिना कोई प्रभाव डाले तत्काल रद्द किया जा सकता है।

4. यह आबंटन अनंतिम है और यह माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास द्वारा डब्ल्यूपी संख्या 1814-1815/2008 में जारी आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर एसएलपी संख्या 13571-13572/2008 में निर्णय के अधधीन है।

5. इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना इस विभाग को हर हालत में दें। यदि यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो महाप्रबंधक (प्रशिक्षण एवं वित्त), दूरसंचार विभाग, एनआईसीएफ, गाजियाबाद को रिपोर्ट करें। यदि वह इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो यह प्रस्ताव रद्द हो जाएगा।

पी. सी. पांडा
सहायक महानिदेशक (एसईए)

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 फरवरी 2009

सं. 5632/एनआईसी/2009-प्रशासन-II--श्री सोरायसम राजेश सिंह, वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर 'एस बी' (कर्मकारी कोड सं. 5632), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र मणिपुर राज्य केन्द्र, इम्फाल का दिनांक 12.09.2008 को देहान्त हो गया है।

पी. एस. पिल्लै, उप निदेशक

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली-3, दिनांक 16 फरवरी 2009

सं. ए-12025/1/96-प्रशा.-राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.1.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं.-5/2/2006-सी.एस.-II के अनुसरण में, इस मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग के श्री अजय मिश्रा, आशुलिपिक ग्रेड-सी की 4,800/- रु. ग्रेड पे के साथ 9,300--34,800/- रु. के पे बैंड-2 में तदर्थ आधार पर सीएसएसएस के संवर्ग में निजी सचिव [आशुलिपिक ग्रेड 'ए एवं बी' (विलयित)] पद की नियुक्ति

अवधि की दिनांक 18.12.2008 से 17.6.2009 तक और छः महीने की अवधि अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. श्री अजय मिश्रा की निजी सचिव श्रेणी में यह नियुक्ति पूरी तरह तदर्थ आधार पर है और वह नागर विमानन मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग के निजी सचिव श्रेणी में खपाने अथवा ग्रेड में वरिष्ठता संबंधी कोई दावा नहीं करेंगे।

एस. आर. पाशाशर, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 2009

सं. ई.आर.बी.-1/2007/3/10--श्री संजय कुमार, सेक्शन इंजीनियर/यांत्रिकी/उत्तर रेलवे (संशोधन पूर्व वेतनमान 6,500/-10,500/- रु.) वर्तमान में रेलवे बोर्ड में वरिष्ठ निरीक्षक/पीपीपी के रूप में कार्यरत को 03.02.2009 के पूर्वाह्न से 6,500/-10,500/- रु. के वेतनमान में (संशोधन पूर्व) रेलवे बोर्ड में प्रतिनियुक्ति के आधार पर विशेष कार्य अधिकारी (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

के. बी. एल. मित्तल, सचिव
रेलवे बोर्ड

दिनांक 16 फरवरी 2009

सं. ई.आर.बी.-1/2009/2/12--राष्ट्रपति जी, श्री एम. पी. जुनेजा, उ.प्र.ग्रे./भा.रे.भं.से., भंडार नियंत्रक/उत्तर रेलवे को 02.02.2009 के अपराह्न से 75,500/- से 80,000/- रु. के ग्रेड में पदोन्नति होने पर अपर सदस्य (रेल भंडार)/रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के. बी. एल. मित्तल, सचिव
रेलवे बोर्ड

सं. ई.आर.बी.-1/2009/2/13--राष्ट्रपति जी, श्री एस. एस. खुराना, भा.रे.बि.इंजी.से., रेलवे बोर्ड को 02.02.2009 से 80,000/- रु. (निर्धारित)

के ग्रेड में अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और भारत सरकार के पदेन प्रमुख सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के. बी. एल. मित्तल, सचिव
रेलवे बोर्ड

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 2009

सं. एल.एच.-21013/1/2004-एस.एल.--राष्ट्रपति, हैड लाईट कीपर (सीनियर स्केल)/सीनियर रेडियो टेक्नीशियन ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारियों को, दीप-स्तंभ और दीप-पोत महानिदेशालय में प्रत्येक अधिकारी के नाम के समक्ष ईगित की गई तारीख से, अगले आदेशों तक 6,500-200-10500/- रु. के वेतनमान में सहायक अभियंता (इलेक्ट्रॉनिक्स) के पद पर पदोन्नत करते हैं :-

1. श्री एस. ए. राज, सहायक अभियंता (इलेक्ट्रॉनिक्स) 03.08.2007
2. श्री के. नेदुमारन, सहायक अभियंता (इलेक्ट्रॉनिक्स) 21.07.2007
3. श्री पी. राउत, सहायक अभियंता (इलेक्ट्रॉनिक्स) 23.05.2007
4. श्री आई. सी. रत्ना प्रसाद, सहायक अभियंता (इलेक्ट्रॉनिक्स) 20.07.2007
5. श्री आर. जी. नायर, सहायक अभियंता (इलेक्ट्रॉनिक्स) 10.06.2007
6. श्री वी. पी. पोन्दार, सहायक अभियंता (इलेक्ट्रॉनिक्स) 31.05.2007
7. श्री बी. ए. जाधव, सहायक अभियंता (इलेक्ट्रॉनिक्स) 22.06.2007
8. श्री आर. एस. जड़ेजा, सहायक अभियंता (इलेक्ट्रॉनिक्स) 17.05.2007
9. श्री टी. ई. स्विट्टन्स, सहायक अभियंता (इलेक्ट्रॉनिक्स) 09.10.2007

एस. के. गोस्वामी, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 13th February 2009

No. RS/6/1/2009/5-Perl.—Shri S.M. Ashraf has been appointed against the tenure post of Private Secretary in the Pay Band-2 of Rs. 9,300-34,800+Grade Pay of Rs. 5,400 (provisional) in the Rajya Sabha Secretariat in the personal staff of the Hon'ble Chairman, Rajya Sabha with effect from the forenoon of 1st February, 2009 for a period of 6 months.

2. The appointment of Shri S.M. Ashraf is at the discretion of the present Hon'ble Chairman, Rajya Sabha.

C. B. RAI, Dir.

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560231, the 3rd February 2009

No. 3/1(1)2009-I—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each:—

Sl. No.	Name	Date of appointment
	Shri/Smt./Kum.	
1.	Vijina V. P.	25.09.2008
2.	Hariharan K.	24.09.2008
3.	Mayukh Acharya	24.09.2008
4.	Saravanan T. T.	24.09.2008
5.	K. Naresh Kumar	24.09.2008
6.	P. Balasubramanian	26.09.2008
7.	D. L. Jayachandra Das	25.09.2008
8.	Juluri Sreenivasulu	26.09.2008
9.	Nachiketa Avinash	25.09.2008
10.	S. Nagapriya	29.09.2008
11.	Nikhil Malhotra	25.09.2008
12.	Nisha S.	25.09.2008
13.	B. Radhika	25.09.2008
14.	Remya Balakrishnan	25.09.2008
15.	Saju S.	26.09.2008
16.	K. Saravanan	25.09.2008
17.	Swathi Kiranmayee M	29.09.2008
18.	V. Girish Kumar	25.09.2008
19.	Arun Satheesan	26.09.2008
20.	S. Balamurugan	26.09.2008
21.	Biswa Ranjan Mohanty	26.09.2008
22.	Buragadda V. Rajasekhar	26.09.2008
23.	Kavitha C. S.	26.09.2008

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 3/1(1)2009-I—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each:—

Sl. No.	Name	Date of appointment
	Shri/Smt./Kum.	
1.	Neha Jain	29.09.2008
2.	Rajkumar A. R.	29.09.2008
3.	Ranjith Kumar Reddy G.	29.09.2008
4.	Sarath R.	29.09.2008
5.	Shalu M. S.	29.09.2008
6.	Shekher Chandra Pratap	30.09.2008
7.	Shishir Ranjan	29.09.2008
8.	Sinu Sen	29.09.2008
9.	Siva Kumar G.	29.09.2008
10.	Sudesh Kumar	30.09.2008
11.	Unni Raveendran	30.09.2008
12.	Vijendra Kumar	29.09.2008
13.	Amit Kumar Singh	30.09.2008
14.	Mane Nilesh T.	30.09.2008
15.	Nikhilesh Pawar	30.09.2008
16.	Shitij Arora	30.09.2008
17.	Sushil Barchha	03.10.2008
18.	B. Venkatshivaram Jadav	06.10.2008
19.	Parvathy R.	07.10.2008
20.	Swati Swaroop	07.10.2008
21.	Lavaraj C.	10.10.2008
22.	I. Isaac Sam	28.10.2008

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 3/1(1)2009-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Senior Technical Assistant-A as Technical Officer-C in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each until further orders:—

Sl. No.	Name	Date of appointment
	Shri/Smt./Kum.	
1.	Mohanan Pillai	01.01.2008
2.	Suresh N.	01.07.2008

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 3/1(1)2009-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineer-SG as Scientists/Engineers-G in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 06.10.2008 and until further orders:—

Shri/Smt./Kum.

1. Dr. P. Radhakrishnan Nair
2. Gopinatha Pai M. V.
3. V. Devarajulu

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 3/1(1)2009-I—The President is pleased to appoint on promotion Dr. S. Packirisamy, Scientist/Engineer-SG as Scientist/Engineer-G in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 04.08.2008 and until further orders.

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 3/1(1)2009-I—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each:—

Sl. No.	Name	Date of appointment
1	2	3
	Shri/Smt./Kum.	
1.	Jayakrishnan B.	18.09.2008
2.	Leena K.	19.09.2008
3.	Supriya N.	19.09.2008
4.	Abhilash K. S.	22.09.2008
5.	Amrita Singh	24.09.2008
6.	Anil P Madeckal	24.09.2008
7.	Dinesh K. N.	24.09.2008
8.	Haroon Rasheed K.	24.09.2008
9.	V. S. Jayakrishnan	24.09.2008
10.	Jinu Krishnan	24.09.2008
11.	Josephlal N. T.	25.09.2008
12.	Lebonah B.	24.09.2008
13.	Nutan Kumari	24.09.2008
14.	V. Prem Kumar	26.09.2008
15.	Ratan Lal Lavavanshi	24.09.2008

1	2	3
16.	Roshin J. Thomas	24.09.2008
17.	Sangeeth Saagar P.	24.09.2008
18.	Satish Kuruvila Alexander	24.09.2008
19.	Md. Shafeeq Ahmed	26.09.2008
20.	Shreejith Shanker	24.09.2008
21.	Sreedevi S.	24.09.2008
22.	H. Swethalakshmi	24.09.2008
23.	Tennynson J. A.	26.09.2008

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 3/1(1)2009-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineer-SG as Scientists/Engineers-G in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 31.07.2008 and until further orders:—

Shri/Smt./Kum.

1. S. Pandian
2. Dr. Mohan Lal P. P.
3. S. Somanath
4. K. Mukundan

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 3/1(1)2009-I—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each:—

Sl. No.	Name	Date of appointment
1	2	3
	Shri/Smt./Kum.	
1.	Rishi Kumar	25.09.2008
2.	R. Sivakumaran	26.09.2008
3.	B. Karthikeyan	26.09.2008
4.	Enni Krishna	30.09.2008
5.	Kautilya Jha	30.09.2008
6.	Zaid Ahmad	30.09.2008
7.	Nirbhay Kumar Upadhyay	29.09.2008
8.	Amit Kumar Pandey	29.09.2008
9.	A. Sree Kumar	29.09.2008

1	2	3
10.	Prashant Kumar	29.09.2008
11.	Nitin Gupta	29.09.2008
12.	Dhanesh S.	29.09.2008
13.	Deshmukh Shailesh Sanjayrao	29.09.2008
14.	Basil Eldhose	29.09.2008
15.	Adarsh V. R.	29.09.2008
16.	Dileep P. K.	30.09.2008
17.	Md Perwaiz Alam	03.10.2008
18.	Dipoo Kumar	30.09.2008
19.	Prabhat Kanti Routh	30.09.2008
20.	Vidhya U Menon	06.10.2008
21.	Rinu Chacko	07.10.2008
22.	Salini Devi R.	07.10.2008

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 3/1(1)2009-I—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SD in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each:—

Sl. No.	Name	Date of appointment
	Shri/Smt./Kum.	
1.	Dr. Prashant Hegde	22.09.2008
2.	Dr. Mukunda Gogoi	24.09.2008

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 3/1(1)2009-I—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each:—

Sl. No.	Name	Date of appointment
	Shri/Smt./Kum.	
1.	Sherene Jalaluddin	24.09.2008
2.	Hari K.	24.09.2008
3.	Celin Maria Simon	24.09.2008
4.	Bindu R.	24.09.2008
5.	Biju V. Gopal	24.09.2008

1	2	3
6.	M. Ponmalar	24.09.2008
7.	Anil George	24.09.2008
8.	Aswathy R. Krishnan	24.09.2008
9.	Anwar K. Backer	24.09.2008
10.	Aneesh K. Thampi	24.09.2008
11.	Sibi Ibrahim	24.09.2008
12.	Arun Zachariah	24.09.2008
13.	Danish K. Daniel	24.09.2008
14.	Sreekanth H.	24.09.2008
15.	Balu R.	24.09.2008
16.	Geno Geo David	24.09.2008
17.	Hariharan K.	24.09.2008
18.	Abhinav Ruhela	25.09.2008
19.	Sameer Saurabh	25.09.2008
20.	Jitha P. Thomas	25.09.2008
21.	Chemas Sahu	25.09.2008
22.	Remya S.	25.09.2008
23.	Rajesh Singh Rajput	30.09.2008

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 3/1(1)2009-I—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each:—

Sl. No.	Name	Date of appointment
	Shri/Smt./Kum.	
1.	C. Pedda Peeraiah	26.09.2008
2.	Piyushkanti Kar	26.09.2008
3.	Preetha G.	26.09.2008
4.	Ratheeshkumar M. P.	29.09.2008
5.	Sruthi V. J.	26.09.2008
6.	Abhik Bhattacharya	30.09.2008
7.	Alok Kumar	29.09.2008
8.	Amit Arya	30.09.2008
9.	Ani K. John	29.09.2008
10.	Anil Kumar Tiwari	29.09.2008

1	2	3
11.	Anoop V.	30.09.2008
12.	Ann Mathew	29.09.2008
13.	Anupam Ramachandran	29.09.2008
14.	Arun Jose K. A.	29.09.2008
15.	Babu C.	29.09.2008
16.	U. Balaganesh	29.09.2008
17.	Bhadrashel	29.09.2008
18.	Bimal B. S.	29.09.2008
19.	Deepak Sharma	29.09.2008
20.	Gino Prakash F.	29.09.2008
21.	Manu Sharma	29.09.2008
22.	Md. Moiuddin Hassan	29.09.2008

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 3/1(2)/2009-I—The President is pleased to accept the resignation from service of the following Scientists/Engineers in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space with effect from the afternoon of the dates mentioned against each:—

Sl. No.	Name	Designation	Date of Resignation
	Shri/Smt./Kum.		
1.	Atul Kumar Singh	Scientist/Engineer-SC	19.08.2008
2.	M. Rajesh	Scientist/Engineer-SD	29.08.2008
3.	A. Ravi Sankar Sastry	Scientist/Engineer-SD	03.10.2008
4.	Dr. A. Rajesh	Scientist/Engineer-SC	10.09.2008
5.	S. Karthikeyanathan	Scientist/Engineer-SC	23.10.2008

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 3/1(2)/2009-I—Consequent on attaining the age of Superannuation the following Officers in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the dates mentioned against each:—

Sl. No.	Name	Post	Date of relief
	Shri/Smt./Kum.		
1.	Gududaiah S. B.	Senior Accounts Officer	31.08.2008
2.	Mahesh Chand Mittal	Scientist/Engineer-H	31.08.2008
3.	P. P. Nair	Head C&GIS	31.08.2008
4.	T. V. Prakasan	Scientist/Engineer-SD	31.08.2008
5.	S. Somarajan Achari	Scientist/Engineer-SE	31.08.2008
6.	Ambika Raveendran	Scientist/Engineer-SF	30.09.2008

1	2	3	4
7.	Din Dyal Khurana	Scientist/Engineer-SG	30.09.2008
8.	Dr. M.S. Padmanabhan	Scientist/Engineer-SD	30.09.2008
9.	Dr. K.N. Ninan	Outstanding Scientist	30.09.2008
10.	S. Murukan Achari	Scientist/Engineer-SD	30.09.2008
11.	V.R. Ramakrishnan	Scientist/Engineer-G	30.09.2008
12.	E.E. Rajakumar	Scientist/Engineer-H	31.10.2008
13.	T.K. Joy	Senior Head Purchase & Stores	31.10.2008
14.	Leelamma Simon	Scientist/Engineer-SG	31.10.2008
15.	S. Sankaranarayanan	Scientist/Engineer-SF	31.10.2008
16.	Dr. K.J. Scariah	Scientist/Engineer-SG	31.10.2008
17.	T. Vijayalekshmy	Scientist/Engineer-SE	31.10.2008
18.	Dr. V. Krishnan	Outstanding Scientist	31.10.2008

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 11/1(1)/2009-I—The President is pleased to appoint on promotion Shri A. Ramaprasad Rao as Accounts Officer in the Indian Space Research Organisation, ISRO Office, Branch Secretariat, New Delhi of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 06.08.2008 and until further orders.

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

The 10th February 2009

No. 2/1/7/2003-I—Consequent on his repatriation to his parent cadre, Dr. R. G. Nadadur, IAS (KN 80), has relinquished the charge of the post of Joint Secretary, Department of Space, Bangalore, on the afternoon of February 10, 2009.

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 16th February 2009

No. A-12025/1/2009-Adm.I—The President is pleased to appoint the following regular Senior Research Officers of Planning Commission against the posts of Deputy Adviser in Planning Commission as mentioned against their names in Pay Band 3 : Rs. 15600-39100+Grade Pay of Rs. 7600/- on ad-hoc basis for a period of one year w.e.f. 12.02.2009 or till regular appointment against the posts or until further orders, whichever is the earliest:—

Sl. No.	Name of the officer	Post of Deputy Adviser against which appointed on ad-hoc basis
1.	Dr. R. P. Singh	Deputy Adviser (Education)
2.	Shri T.K. Choudhury	Deputy Adviser (Power)
3.	Shri K.P. Singh	Deputy Adviser (Monitoring-Power)

2. It is made clear that the above said ad-hoc appointments will not bestow on the officers any right to claim for regular appointments in the grade of Deputy Adviser and also that any service rendered by them on ad-hoc basis in the grade of Deputy Adviser would neither count for the purposes of seniority in the grade of Deputy Adviser nor towards eligibility for promotion to the next higher grade.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

MINISTRY OF LAW & JUSTICE
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

LAW COMMISSION

New Delhi-110001, the 9th February 2009

No. A-12025/1/2005-LC—On the recommendation of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Raghvendra Singh Shrinet, as Superintendent (Legal) in the Law Commission of India, Deptt. of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice in the pay scale of Rs. 9300-34800+G.P. Rs. 4800 w.e.f. 27.01.2009 (A.N.) on direct recruitment basis, until further orders.

Shri Raghvendra Singh Shrinet has been medically examined by the competent authority and found fit for the Government service.

D. CHOUDHURY, Under Secy.

New Delhi, the 12th February 2009

No. A-12026/6/06-Admn.I(LA)—The Competent Authority in this department is pleased to appoint Smt. Renu Pandey, Assistant (Legal) of this Department, as Superintendent (Legal) (General Central Service, Group B, Gazetted post) on adhoc basis in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice, in the pay band PB-2 with pay scale of Rs. 9300-34800 and grade pay of Rs. 4800/- for a period of six months with effect from the forenoon of 19th January 2009 and until further orders.

2. The above ad-hoc appointment will not bestow on her any claim for regular appointment to the post of Superintendent (Legal) nor will the service so rendered by her shall count for the purpose of seniority in the grade or for promotion to the next higher grade.

V. RAVINDRAN, Under Secy.

The 17th February 2009

No. A-12025/2/2005-Admn.I (LA)—As per orders of the competent authority, the nomenclature of the post of Legal Adviser and Ex-officio Additional Secretary (Conveyancing) in the Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs in the pay band of Rs. 37,400-67,000/- with grade pay of Rs. 12,000/-, has been changed to Additional Secretary to the Government of India in the same pay band and grade pay.

V. RAVINDRAN, Under Secy.

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110011, the 2nd February 2009

No. K-13013/2/2008-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Bejjaram Chandra Kumar, to be an Additional Judge of the Andhra Pradesh High Court, for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

The 3rd February 2009

No. K. 13022/2/2008-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (1) Shri Parameswaran Bhavadasan, (2) Shri Soudamini Amma Sankaranarayana Pilla Satheesachandran, (3) Shri Madatiparambil Lonappan Joseph Francis and (4) Shri Pullukatte Sanku Gopinathan, Judicial Officers as Additional Judges of the Kerala High Court, in that order of seniority, for a period of two years, with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

The 6th February 2009

No. K. 13014/1/2008-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Pramod Dattaram Kode, (ii) Shri Umesh Dattatraya Salvi, (iii) Shri Shrihari Purushottam Davare, (iv) Shri Anil Ramachandra Joshi, (v) Smt. Mridula Ramesh Bhatkar, and (vi) Shri Anand Vasantrao Potdar to be Additional Judges of the Bombay High Court, for a period of two years, in the same order of seniority, with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

No. K. 13026/1/2007-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Mandhata Singh to be an Additional Judge of the Patna High Court for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

The 9th February 2009

No. K. 13026/1/2007-US.II—In partial modification of this Department's Notification of even number dated 6th February, 2009, appointing Shri Mandhata Singh as Additional Judge of the Patna High Court, 'article 217 of the Constitution of India' may be read as "article 224 of the Constitution of India".

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 11th February 2009

No. 14012/1/2006-SR—In continuation of this Ministry's notification of even number dated 3.6.2008, the appointment of Smt. Asha Sharma, Assistant in the Northern Zonal Council Secretariat as Superintendent in the same Secretariat on ad-hoc basis is extended for a further period of six months from 1st February 2009 to 31st July 2009, or until further orders, whichever is earlier.

PRADEEP YADAV, Dir. (SR)

New Delhi-110001, the 13th February 2009

No. I-18011/8/2008-IPS.IV—In exercise of the powers conferred by Rule-3A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service the following members of the Indian Police Service borne on the cadre of Uttar Pradesh with effect from the dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the IPS probationer	Date of confirmation in the IPS
	S/Shri	
1.	Praveen Kumar, IPS (UP:2001)	22.12.2005
2.	Ajay Kumar Mishra, IPS (UP:2003)	01.09.2005
3.	Katarpu Sunil Emmanuel, IPS (UP:2003)	01.09.2005
4.	Nachiuketa Jha, IPS (LP:2003)	01.09.2005
5.	Modak Rajesh Dinesh Rao, IPS (UP:2003)	22.12.2005

RAJINDER KUMAR, Section Officer

New Delhi, the 16th February 2009

No. I-14011/2/2008-IPS.I(II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Rajasthan Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the cadre of Rajasthan under sub-rule (1) of the Rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954:—

Select List-2008

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Surendra Kumar	13.10.1956
2.	Mahendra Singh Choudhary	01.07.1959
3.	Praveen Sharma	13.07.1954
4.	Habeeb Khan Gauran	15.08.1957
5.	Veerbhan Ajwani	14.02.1954
6.	Prem Prakash Tak	05.04.1956

2. The recommendations of the Selection Committee will be subject to the outcome of DB Civil Special Appeal (W) No. 352/2005 in SB Civil WP No. 5241/1994 (V.K. Gaur vs. State of Rajasthan & ors.).

3. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

O. S. ASHOK, Under Secy.

No. I-14011/2/2008-IPS.I(I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 06.02.2009, approved the Select List of 2008, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 27.06.2008, containing the names of the following State Police Service Officers of Rajasthan, towards filling up six substantive vacancies in the Rajasthan Cadre of IPS:—

Select List-2008

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Surendra Kumar	13.10.1956
2.	Mahendra Singh Choudhary	01.07.1959
3.	Praveen Sharma	13.07.1954
4.	Habeeb Khan Gauran	15.08.1957
5.	Veerbhan Ajwani	14.02.1954
6.	Prem Prakash Tak	05.04.1956

2. The recommendations of the Selection Committee will be subject to the outcome of DB Civil Special Appeal (W) No. 352/2005 in SB Civil WP No. 5241/1994 (V.K. Gaur vs. State of Rajasthan & ors.).

O. S. ASHOK, Under Secy.

**MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH
EASTERN REGION**

New Delhi-110011, the 2nd February 2009

No. 23/3/2009-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Jarnail Singh, IAS (MT:1974), as Secretary, in the Ministry of Development of North Eastern Region, w.e.f. 2.2.09 (F.N.).

ASHOLI CHALAI, Dy. Secy.

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES &
PENSIONS**

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 23rd February 2009

No. 14015/14/2008-AIS(I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Maharashtra containing the following names prepared on 27th November, 2008 under Regulation 5(5) and approved on 12th February, 2009, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in IAS Cadre of Maharashtra under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List years 2006, 2007 and 2008:—

SELECT LIST 2006

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.*	R. R. Majrikar (ST)	19.06.1951
2.	A. M. Bharkade (ST)	01.07.1953
3.	S. J. Koche (SC)	08.06.1952
4.	R. G. Kulkarni	01.07.1958

SELECT LIST 2007

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	F. V. Vasave (ST)	08.10.1953
2.	V. B. Patil	11.06.1962
3.	N. K. Poyam (ST)	10.10.1960
4.	D. D. Valvi (ST)	17.10.1953

SELECT LIST 2008

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	R. R. Mane	10.08.1960

* The inclusion of Sh. R. R. Majrikar in the Select List 2006 is subject to outcome of W. P. No. 3029/2007 filed by him against Government of Maharashtra before Nagpur Bench of Bombay High Court.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/14/2008-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulation, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Maharashtra to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List years 2006, 2007 and 2008, on probation until further orders and to allocate them to the Maharashtra Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:—

SELECT LIST 2006

Sl. No.	Name of the Officer
	(S/Shri)
1.*	R. R. Majrikar (ST)
2.	A. M. Bharkade (ST)
3.	S. J. Koche (SC)
4.	R. G. Kulkarni

SELECT LIST 2007

Sl. No.	Name of the Officer
	(S/Shri)
1.	F. V. Vasave (ST)
2.	V. B. Patil
3.	N. K. Poyam (ST)
4.	D. D. Valvi (ST)

SELECT LIST 2008

Sl. No.	Name of the Officer
	(S/Shri)
1.	R. R. Mane

* The appointment of Sh. R. R. Majrikar in the Select List 2006 is subject to outcome of W. P. No. 3029/2007 filed by him against Government of Maharashtra before Nagpur Bench of Bombay High Court.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/06/2008-AIS(I)-A—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Gujarat containing the following names prepared on 1st December, 2008 under Regulation 5(5) and approved on 15th January, 2009, under Regulation 7(2) towards filling up promotion

quota vacancies in IAS Cadre of Gujarat under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2008:—

SELECT LIST 2008

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	D. A. Satya	13.12.1955
2.	J. G. Hingrajia	10.05.1954
3.	M. B. Patel (ST)	08.06.1954
4.*	P. A. Shah	31.08.1954

*The Officer at S. No. 4 has been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Government.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/06/2008-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Gujarat to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2008, on probation until further orders and to allocate them to the Gujarat Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:—

Sl. No.	Name of the Officer
	(S/Shri)
1.	D. A. Satya
2.	J. G. Hingrajia
3.	M. B. Patel (ST)

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/06/2008-AIS(I)-A—In exercise of the powers conferred by Rule 8(2) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 8 of Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, the President is pleased to notify the Select List of Non-State Civil Service officers of Gujarat containing the following names prepared on 02.12.2008 under Regulation 5 and approved on 21st January, 2009 under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies

in IAS Cadre of Gujarat under Non-State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 3 of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2008:—

SELECT LIST 2008

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	M. A. Gandhi	13.01.1964
2.	H. N. Thakkar	13.08.1955
3.	N. B. Upadhyay	31.10.1962

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/06/2008-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(2) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 8 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the Non-State Civil Service of Gujarat to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 3 of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2008, on probation until further orders and to allocate them to the Gujarat Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:—

Sl. No.	Name of the Officer
	(S/Shri)
1.	M. A. Gandhi
2.	H. N. Thakkar
3.	N. B. Upadhyay

S. S. SHUKLA, Under Secy.

The 24th February 2009

No. 14015/01/2008-AIS(I)-A—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Andhra Pradesh containing the following names prepared on 31st January, 2009 under Regulation 5(5) and approved on 17th February, 2009, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in IAS Cadre of Andhra Pradesh under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in

consultation with the State Government for the Select List year 2008:—

SELECT LIST 2008

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	E. Sridhar (ST)	28.05.1968
2.	Mohammed Abdul Azeem	02.01.1963
3.	M. Jagannadham	01.07.1958
4.	T. K. Sreedevi	14.08.1970
5.	I. Samuel Anand Kumar	17.05.1961
6.	V. Karuna	26.07.1966
7.	B. Bala Maya Devi (SC)	08.10.1967

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/01/2008-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Andhra Pradesh to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2008, on probation until further orders and to allocate them to the Andhra Pradesh Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:—

Sl. No.	Name of the Officer
	(S/Shri)
1.	E. Sridhar (ST)
2.	Mohammed Abdul Azeem
3.	M. Jagannadham
4.	T. K. Sreedevi
5.	I. Samuel Anand Kumar
6.	V. Karuna
7.	B. Bala Maya Devi (SC)

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/21/2008-AIS(I)-A—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service Officers of Tamil Nadu containing the following names prepared on 22nd November, 2008 under Regulation 5(5) and approved on 18th February, 2009, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in IAS Cadre of Tamil Nadu under State

Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2008:—

SELECT LIST 2008

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	Smt. V. Shobana (SC)	24.02.1967
2.	C. Munianathan (SC)	19.08.1962
3.	M. Vijayakumar (SC)	07.10.1960
4.	Selvi A. Suganthi (SC)	04.05.1965
5.	Smt. S. Madhumathi (SC)	28.01.1967
6.	T. N. Hariharan (SC)	14.06.1965
7.	M. Vallahar (SC)	22.06.1967
8.	C. Kamaraj (SC)	10.05.1963
9.	T. Abraham (SC)	02.04.1966
10.	T. P. Rajesh (SC)	17.04.1963

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/21/2008-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Tamil Nadu to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2008, on probation until further orders and to allocate them to the Tamil Nadu Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:—

Sl. No.	Name of the Officer
	(S/Shri)
1.	Smt. V. Shobana (SC)
2.	C. Munianathan (SC)
3.	M. Vijayakumar (SC)
4.	Selvi A. Suganthi (SC)
5.	Smt. S. Madhumathi (SC)
6.	T. N. Hariharan (SC)
7.	M. Vallahar (SC)
8.	C. Kamaraj (SC)
9.	T. Abraham (SC)
10.	T. P. Rajesh (SC)

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/12/2008-AIS(I)-A—In exercise of the powers conferred by Rule 8(2) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 8 of Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, the President is pleased to notify the Select List of Non-State Civil Service officers of Kerala containing the following names prepared on 30.12.2008 under Regulation 5 and approved on 19th February, 2009 under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in IAS Cadre of Kerala under Non State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 3 of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2008:—

SELECT LIST 2008

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	Biju Prabhakar (OBC)	20.04.1965
2.	Smt. M. S. Jaya	29.05.1959

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/12/2008-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(2) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 8 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the Non-State Civil Service of Kerala to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 3 of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2008, on probation until further orders and to allocate them to the Kerala Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:—

Sl. No.	Name of the Officer
	(S/Shri)
1.	Biju Prabhakar (OBC)
2.	Smt. M. S. Jaya

S. S. SHUKLA, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 13th February 2009

{HEADQUARTERS ESTABLISHMENT (CA)}

No. 1/2009 (F. No. A-15011/2/2008-CA)—The President is pleased to appoint Smt. Renu Jauhri, IRS (IT:87), an officer of Indian Revenue Service as Competent Authority & Administrator, Delhi under the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976

and the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, with effect from the afternoon of 4th February, 2009 and until further orders.

VICTOR JAMES, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 9th February 2009

No. A-19013/01/2009-Admn.II—In pursuance of Department of Expenditure (CAS) O.M.No. A-32014/3/2007- CAS dated 05.02.2009, the President is pleased to appoint Shri Ashok Kumar Verma, regular Stenographer Grade 'C' of CSSS of the cadre of Ministry of Home Affairs to the grade of Stenographer Grade A&B (merged) (designated as Private Secretary) of Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) in the pay scale of Rs. 9,300—34,800+Rs. 4,800/- (G.P.) in PB-2 in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs purely on ad-hoc basis w.e.f. 28.01.2009 (FN) until further orders.

2. The ad-hoc appointment of Shri Ashok Kumar Verma, Stenographer Grade 'C' as Stenographer Grade 'A&B' (merged) (designated as PS) will be subject to the following terms and conditions:—

- The ad-hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A&B' (merged)(P.S.) of CSSS;
- Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

(DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES)

New Delhi, the 22nd January 2009

No. A-15012/1/2007-DRT—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 read with Section 6 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, (51 of 1993), the Central Government has appointed Shri E. Jacob R. Daniel, Additional Legal Adviser, Central Bureau of Investigation, Chennai, as Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal-II, Chennai, for a period of five years with effect from 31st December, 2008 (Afternoon) or till he attains the age of 62 years, whichever is earlier.

V. P. BHARDWAJ, Dir.

New Delhi, the 3rd February 2009

No. A-15012/1/2007-DRT—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 read with Section-6 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial

Institutions Act, 1993, (51 of 1993), the Central Government has appointed Shri V. Subramanian, as Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal, Ernakulam, for a period of five years with effect from 21st January, 2009 (Forenoon) or till he attains the age of 62 years, whichever is earlier.

A. THOMAS, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 11th February 2009

No. A-12026/6/2008-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri R. K. Thapar, a regular Section Officer of the Central Secretariat Service, as Under Secretary in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the Revised Pay Band+Grade Pay i.e. PB-3 of Rs. 15,600-39,100+6,600/- on purely ad-hoc basis with effect from the forenoon of the 11th September, 2008 and until further orders.

2. The above ad-hoc appointment is subject to the following conditions:—

- (i) The abovementioned ad-hoc appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I;
- (ii) The abovementioned ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

B. S. SAMKRIA, Under Secy.

New Delhi-110511, the 30th January 2009

No. A-32013/8/2008/Gr.A/Ind/79-86—The President is pleased to appoint, on probation, Shri Ramesh Chand Jain, Sr. Accounts Officer (Group 'B') to the Junior Time Scale (JTS) of ICAS (Group 'A') in the pay scale of Rs. 8000-275-13500/- (pre-revised), (new Pay Band-3 of Rs. 15600-39100/- with Grade Pay of Rs. 5400/-) in terms of the Indian Civil Accounts Service (Group 'A') Recruitment Rules, 2006, as amended from time to time, with effect from the date of his taking over of the charge of the post in the JTS on or after 1st February, 2009.

The period of probation shall be two years from the date of his taking over of charge of the post in JTS.

S. S. DUBEY, Dy. Controller Gen. of Accounts

DEPARTMENT OF DISINVESTMENT

New Delhi-110003, the 13th February 2009

No. 9/3/2009-Admn.—In pursuance of the Department of Personnel & Training (CS-I-D Section)'s Office Order No. 4/5/2008-CS-I (D) dated 6th February, 2009, Ms. Anita Chauhan has assumed charge of the post of Director in the Department of Disinvestment, with effect from the Forenoon

of 10th February, 2009 and taken on the roll of this Department.

NARENDRA SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 14th January 2009

No. 2/2009 (A-19011/1/2009-E.I)—The President is pleased to appoint Ms. Sangeeta Godbole, IRS (IT:89) as Director in the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce with effect from the forenoon of 13th January, 2009 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

R. K. MITRA, Dir.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi-110001, the 30th December 2008

No. A-32011/4/2007-HR-II—In terms of instructions issued by the Department of Personnel and Training (DoPT)'s vide their O.M. No. 5/5/2008-CS.II, dated 12.08.2008, the President is pleased to promote Smt. Sunita Malhotra, a regular Steno Grade 'C' of CSSS and borne on the combined cadre of the Department of Fertilizers and Department of Chemicals and Petrochemicals as Grade 'Steno A&B' (Merged) of CSSS on purely ad-hoc basis in the Pay Band (PB-2) Rs. 9300-34800/- with Grade Pay of Rs. 4800/- w.e.f. the forenoon of 04.12.2008 for a period upto 30.12.2008 or until further orders, whichever is earlier. Other terms and conditions mentioned in DoPT's O.M. No. 5/8/2006-CS.II, dated 31.05.2006 will remain unchanged.

2. There is no vigilance case either pending or being contemplated against her.

S. R. GHOSH, Under Secy.

No. A-32011/4/2007-HR-II—In terms of instructions issued by the Department of Personnel and Training (DoPT)'s vide their O.M. No. 5/5/2008-CS.II, dated 12.08.2008, the President is pleased to promote Smt. Harita Kapoor, a regular Steno Grade 'C' of CSSS and borne on the combined cadre of the Department of Fertilizers and Department of Chemicals and Petrochemicals as Grade 'Steno A&B' (Merged) of CSSS on purely ad-hoc basis in the Pay Band (PB-2) Rs. 9300-34800/- with Grade Pay of Rs. 4800/- w.e.f. the forenoon of 04.12.2008 for a period upto 30.12.2008 or until further orders, whichever is earlier. Other terms and conditions mentioned in DoPT's O.M. No. 5/8/2006-CS.II, dated 31.05.2006 will remain unchanged.

2. There is no vigilance case either pending or being contemplated against her.

S. R. GHOSH, Under Secy.

No. A-32011/4/2007-HR-II—In terms of instructions issued by the Department of Personnel and Training (DoPT) vide their O.M. No. 5/5/2008-CS.II, dated 12.08.2008, the President is pleased to promote Shri M. K. Chawla, a regular Steno Grade 'C' of CSSS and borne on the combined cadre of the Department of Fertilizers and Department of Chemicals and Petrochemicals as Grade 'Steno A&B' (Merged) of CSSS on purely ad-hoc basis in the Pay Band (PB-2) Rs. 9300-34800/- with Grade Pay of Rs. 4800/- w.e.f. the forenoon of 04.12.2008 for a period upto 30.12.2008 or until further orders, whichever is earlier. Other terms and conditions mentioned in DoPT's O.M. No. 5/8/2006-CS.II, dated 31.05.2006 will remain unchanged.

2. There is no vigilance case either pending or being contemplated against him.

S. R. GHOSH, Under Secy.

The 19th January 2009

No. A-12011/10/2008-HR.II(Pt.)—The President is pleased to appoint Shri Sudhir Bhargava, IAS (RJ:1979) as Joint Secretary in the Department of Fertilizers in the pay scale of Rs. 18400-22400/- (pre-revised) for a period of five years w.e.f. forenoon of 16th January, 2009 or until further orders, whichever event takes place earlier.

S. R. GHOSH, Under Secy.

The 21st January 2009

No. A-32011/4/2007-HR-II—Consequent upon inclusion of Shri Krishan Lal in the Select List of Steno Gr. 'A&B' (Merged) of CSSS for the year 2005 based on the nomination by the Department of Personnel & Training to the Fertilizer Cadre comprising the Department of Fertilizers and Department of Chemicals & Petrochemicals vide DoPT's O.M. No. 5/12/2007-CS.II, dated 05.11.2008 and on his relief from Ministry of Women & Child Development vide their O.O. No. 5-9/2007-Admn., dated 22.12.2008, the President is pleased to appoint Shri Krishan Lal as Steno Gr. 'A&B' (Merged) of CSSS on regular basis in the Pay Band (PB-2) of Rs. 9300-34800/- with Grade Pay of Rs. 4800/- w.e.f. the forenoon of 22nd December, 2008.

2. He is posted in the Department of Chemicals & Petrochemicals.

S. R. GHOSH, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 10th February 2009

No. A-12011/15/2006-Estt.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS for the year 2006 vide Department of

Personnel & Training's O.M. No. 4/9/2008-CS.I(D) dated 30th January, 2009, the President is pleased to appoint Shri Girja Nand Singh, ad-hoc Deputy Secretary of CSS in the Department of Consumer Affairs as Deputy Secretary of CSS on regular basis with effect from the forenoon of 1st July, 2006 and until further orders.

PREMA BHATT, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 4th February 2009

No. A-38011/3/2008-P.II—Consequent upon attaining the age of superannuation Shri Chiranji Lal Langain, Deputy Secretary in the Ministry of Environment and Forests has retired from Government Service from the afternoon of 31st January, 2009.

PREMA MOHAN, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 11th February 2009

No. A. 12025/30/2007-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Ms.) Ranvinder Kaur to the post of Assistant Professor in the speciality of Anaesthesia in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 23rd February, 2008, until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

The 13th February 2009

No. A. 12025/38/2006-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ananta Kumar Naik to the post of Assistant Professor in the speciality of Orthopaedics in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the afternoon of 21st August, 2007, until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 5th February 2009

No. A-19013/2/1988-Estt.I—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/1/2009-EO(SM-I) dated 27.1.2009, the President is pleased to appoint Ms. K. Sujatha Rao, IAS (AP:74) as Secretary, Department of AIDS Control and Director General, National AIDS Control Organization in the Ministry of Health & Family Welfare with effect from the forenoon of 20th December, 2008.

ARVIND KUMAR, Under Secy.

The 6th February 2009

No. A. 12023/05/2008-Estt.III—The President is pleased to appoint Shri Raman Prasad a regular AVMO in the Ministry of Health & Family Welfare to the post of Programme Officer (Audio Visual) in the Ministry of Health & Family Welfare in the Pay Band 3 in the scale of Rs. 15600-39100/- with a Grade Pay of Rs. 7600/- (Rs. 12000-16500/- pre-revised), on ad-hoc basis, initially for a period of six months w.e.f. the forenoon of 20th January, 2009 or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

ARVIND KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA AND
NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND
HOMOEOPATHY (AYUSH)

New Delhi, the 2nd February 2009

No. A. 22012/01/99 AYUSH (E-II)—In pursuance of DoPT's letter No. 5/14/2008-EO (SM-I) dt. 29th December 2008 the President is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar Panda an Officer belonging to Indian Administrative Service (MT:80) as Joint Secretary, Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH), Ministry of Health & Family Welfare in the scale of pay of Rs. 37400-67000/- (PB-4) and Grade Pay of Rs. 10,000/- w.e.f. the forenoon of 2nd February 2009 for a period of five years and until further orders, whichever is earlier.

T. S. BHATIA, Dy. Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 5th February 2009

No. A-38012/3/2008-Admn.-I—Dr. Suresh Kumar Chaturvedi, Chief Medical Officer (TB) of the Directorate General of Health Services retired from Government Service on attaining the age of superannuation on 31.12.2008 (A.N.).

R. K. KALRA, Dy. Dir. Admn. (RKK)

The 11th February 2009

No. A-38012/4/2008-Admn.-I—Dr. Gurjeet Singh Soin, Director, CGHS of the Directorate General of Health Services retired from Government Service on attaining the age of superannuation on 31.12.2008 (A.N.).

R. K. KALRA, Dy. Dir. Admn. (RKK)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRI. & COOPERATION)

New Delhi, the 15th January 2009

No. 4-3/87-M&T(Admn.)—The President is pleased to permit Shri Y. Suneja, Director, North Eastern Region Farm

Machinery Training & Testing Institute, Biswanath Chariali, Sonitpur, Assam to retire voluntarily w.e.f. the afternoon of 28.02.2009 under Rule 48(1) (a) of CCS (Pension) Rules, 1972 after the notice period of three months.

VEENA BHALLA, Under Secy.

New Delhi, the 5th February 2009

No. 32011/1/2008-E.II—With the approval of the Competent Authority, Shri Shrawan Kumar and Shri S. R. Kachru, both regular Senior Technical Assistants (Crops) in the Department of Agriculture and Cooperation and officiating as Assistant Director (Crops) on ad-hoc basis are appointed as Assistant Director (Crops) in the Pay Band-2 in the pay scale of Rs. 9300—34800/- with Grade Pay of Rs. 4800/- on regular promotion basis in the Department w.e.f. 26.11.2008.

A. K. ARORA, Under Secy.

DIRECTORATE OF JUTE DEVELOPMENT

Kolkata-700020, the 2nd February 2009

No. 3-3/DJD/08/2444—The undersigned is pleased to appoint Shri Lalit Sharma, a regular Statistical Investigator of the Directorate of Oilseed Development, Hyderabad, to the post of Assistant Director in Directorate of Jute Development in the pre-revised scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in temporary officiating capacity in the forenoon of 16th January, 2009.

Sd/- (ILLEGIBLE), Dir.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 20th January 2009

No. A-32014/1/2006-E-III—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/11/2007-CS.II dated 07.02.2008, the President is pleased to appoint Shri Jagtar Singh, Stenographer Grade 'C' belonging to CSSS cadre of the Ministry of Human Resource Development as Private Secretary in the cadre of Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education w.e.f. the forenoon of 29.05.2008 in the pre-revised scale of Rs. 6500-200-10500/- on ad-hoc basis upto 30.06.2008 or until further orders.

ZILEY SINGH VICAL, Under Secy.

The 30th January 2009

No. A-12024(3)/2005-E-III—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/12/2007-CS.II dated 05.11.2008, the President is pleased to appoint Shri Het Ram, Stenographer Grade 'C' belonging to CSSS cadre of the Ministry of Home Affairs as Private Secretary

in the cadre of Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education in the pre-revised pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- on regular basis w.e.f. 18.12.2008 (forenoon).

ZILEY SINGH VICAL, Under Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 27th January 2009

No. 8-2/2007/ASI/AS—On the recommendations of the Appointments Committee of the Cabinet (Department of Personnel & Training) with reference to their Order No. 4/1/2009-EO(SM.I) dated 12th January 2009, the President is pleased to extend the tenure of Smt. Anshu Vaish, IAS (MP:75), in the post of Director General in the Archaeological Survey of India, in the rank and pay of Secretary to the Govt. of India by in-situ upgradation in the present post beyond the period of 31st December 2008 and upto 31st January 2009 or until further orders.

B. L. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

New Delhi-1, the 6th February 2009

No. A-12034/1/2004-Estt.—The President is pleased to appoint Shri V. R. Malhotra, Director (General Central Services) of this Ministry as Private Secretary to the Hon'ble Minister for Social Justice and Empowerment (Smt. Meira Kumar) at the level of Deputy Secretary from the date of taking over charge of the post on co-terminus basis or for a period of five years or till he ceases to function as PS to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

VEERENDRA KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 3rd February 2009

No. 11019/2/2005-Estt.—In pursuance of Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Office Order No. 13016/2/2008-IES dated 29.12.2008, the President is pleased to appoint Ms. Urvashi Sadhwani as Economic Adviser in the Ministry of Tribal Affairs in the Pay Band-4 (i.e. Rs. 37,400-67,000/-) with Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from the forenoon of 01.01.2009.

A. K. SAHA, Under Secy.

The 4th February 2009

No. 19011/1.2009-Estt.—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 5/15/2008-CS.I(U) dated 20.01.2009, the President is pleased to appoint Shri R. H. H. Hmar as Under Secretary in the Ministry of Tribal Affairs with effect from the forenoon of 21.01.2009.

A. K. SAHA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATION & IT (DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATION)

New Delhi-110001, the 24th December 2008

Sub.: Appointment to the Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' on the basis of result of Civil Services (Main) Examination, 2007.

No. 7-03/2006-SEA.I—On the basis of the Civil Services (Main) Examination, 2007 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Ms. Divya A B (Rank No. 478) (General) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the pay scale of PB-3 Rs. 15,600-39,100+5,400/- on the following terms:—

- (i) The post is permanent but he/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.
- (ii) The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- (iii) The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- (iv) The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.
- (v) Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.
- (vi) The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.
- (vii) Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunications.

3a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The allocation is Provisional and subject to the outcome of the SLP No. 13571-13572/2008 filed in the Hon'ble Supreme Court against the Order the Hon'ble High Court of Madras in WP No. 1814-1815/2008.

5. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. This offer would lapse if he/she did not intimate within a period of one month from the date of issue of this offer. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the GM (Training & Finance), NICEF, Ghaziabad, immediately after completion of the Foundation Course.

6. The candidate who has joined the Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

P. C. PANDA, Asstt. Dir. Gen. (SEA)

Sub.: Appointment to the Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' on the basis of result of Civil Services (Main) Examination, 2007.

No. 7-03/2006-SEA.I—On the basis of the Civil Services (Main) Examination, 2007 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Shri Shaikh Arif Husan (Rank No. 116) (General) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the pay scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100+5,400/- on the following terms:—

- (i) The post is permanent but he/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.

- (ii) The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

- (iii) The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

- (iv) The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICEF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.

- (v) Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.

- (vi) The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.

- (vii) Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunications.

3a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The allocation is Provisional and subject to the outcome of the SLP No. 13571-13572/2008 filed in the Hon'ble Supreme Court against the Order the Hon'ble High Court of Madras in WP No. 1814-1815/2008.

5. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the GM (Training & Finance), Department of Telecom., NICEF, Ghaziabad. This

offer would lapse if he/she did not join within a period of one month from the date of issue of this offer.

P. C. PANDA, Asstt. Dir. Gen. (SEA)

Sub.: Appointment to the Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' on the basis of result of Civil Services (Main) Examination, 2007.

No. 7-03/2006-SEA.I—On the basis of the Civil Services (Main) Examination, 2007 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Shri Bobde Amit Ashokrao (Rank No. 284) (O.B.C.) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the pay scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100+5,400/- on the following terms:—

- (i) The post is permanent but he/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.
- (ii) The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- (iii) The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- (iv) The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.
- (v) Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.
- (vi) The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.
- (vii) Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunications.

3a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The allocation is Provisional and subject to the outcome of the SLP No. 13571-13572/2008 filed in the Hon'ble Supreme Court against the Order the Hon'ble High Court of Madras in WP No. 1814-1815/2008.

5. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the GM (Training & Finance), Department of Telecom., NICF, Ghaziabad. This offer would lapse if he/she did not join within a period of one month from the date of issue of this offer.

P. C. PANDA, Asstt. Dir. Gen. (SEA)

DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY
(NATIONAL INFORMATICS CENTRE)

New Delhi-110003, the 11th February 2009

No. 5632/NIC/2009-Adm.II—Shri Soraisam Rajesh Singh, Scientific Officer/Engineer 'SB' (Emp. Code No. 5632), National Informatics Centre, Manipur State Centre, Imphal has expired on 12.09.2008.

P. S. PILLAI, Dy. Dir.

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110003, the 16th February 2009

No. A. 12025/1/96-Admn.—The President is pleased to extend the appointment of Shri Ajay Misra, Stenographer Grade 'C' of CSSS cadre of this Ministry to the post of Private Secretary [Stenographer Grade 'A&B' (Merged)] of CSSS on ad-hoc basis in the Pay Band-2 of Rs. 9,300-34,800/- with grade pay of Rs. 4,800/- for a period of six months w.e.f. 18.12.2008 to 17.06.2009 or until further orders, whichever is earlier in pursuance of Department of Personnel & Training O.M. No. 5/2/2006-CS.II dated 13.1.2009.

2. The appointment of Shri Ajay Misra to the Private Secretary grade is purely on ad-hoc basis and he will have

no claim for absorption in the Private Secretary Grade of the CSSS cadre of the Ministry of Civil Aviation or for seniority in the grade.

S. R. PARASHER, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 12th February 2009

No. ERB-I/2007/3/10—Shri Sanjay Kumar, Section Engineer/Mech./Northern Railway (Pre-revised Scale Rs. 6,500-10,500/-) presently working in Railway Board as Sr. Inspector/PPP, is appointed as Officer on Special Duty (Technical) in the scale of Rs. 6,500-10,500/- (Pre-revised) in Railway Board on deputation basis with effect from the forenoon of 03.02.2009.

K. B. L. MITTAL, Secy.
Railway Board

The 16th February 2009

No. ERB-I/2009/2/12—The President is pleased to appoint Shri M. P. Juneja, HAG/IRSS, Controller of Stores/Northern Railway as Additional Member (Railway Stores)/Railway Board, on promotion to Grade of Rs. 75,500-80,000/- with effect from afternoon of 02.02.2009.

K. B. L. MITTAL, Secy.
Railway Board

No. ERB-I/2009/2/13—The President is pleased to appoint Shri S. S. Khurana, IRSEE, Railway Board as Chairman Railway Board and ex-officio Principal Secretary

to the Government of India in the Grade of Rs. 80,000/- (fixed) with effect from 02.02.2009.

K. B. L. MITTAL, Secy.
Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF SHIPPING)

New Delhi, the 6th February 2009

No. LH-21013/1/2004-SL—The President is pleased to promote the following officers in the grade of Head Lightkeeper (Sr. Scale)/Sr. Radio Technician to the post of Assistant Engineer (Electronics) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Directorate General of Lighthouses & Lightships with effect from the dates indicated against each:—

S/Shri	
1. S.A.A. Raj, Asstt. Engineer (Electronics)	03.08.2007
2. K. Nedumaran, Asstt. Engineer (Electronics)	21.07.2007
3. P. Rout, Asstt. Engineer (Electronics)	23.05.2007
4. I.C. Ratna Prasad, Asstt. Engineer (Electronics)	20.07.2007
5. R.G. Nair, Asstt. Engineer (Electronics)	10.06.2007
6. V.F. Pondar, Asstt. Engineer (Electronics)	31.05.2007
7. B.A. Jadhav, Asstt. Engineer (Electronics)	22.06.2007
8. R.S. Jadeja, Asstt. Engineer (Electronics)	17.05.2007
9. T.E. Swittens, Asstt. Engineer (Electronics)	09.10.2007

S. K. GOSWAMI, Under Secy.